



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 30—अप्रैल 5, 2013 (चैत्र 9, 1935)

No. 13]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 30—APRIL 5, 2013 (CHAITRA 9, 1935)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	133	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	463	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... *
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	453	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... 283
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम..... *		भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस..... *
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ..... *		भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... *
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट..... *		भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं..... 1031
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)..... *		भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 485
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	133	Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	463	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	453	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	283
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1031
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	485
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1**[PART I—SECTION 1]**

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जूनवरी 2013

संख्या 2-प्रेज/2013- राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उनकी असाधारण वीरता के लिए “कीर्ति चक्र” प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं:-

आईसी-67270एफ मेजर अनूप जोसेफ मंजाली, बिहार रेजिमेंट/24वीं बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स

[पुरस्कार देने की प्रभावी तारीख: 01 अक्टूबर 2012]

01 अक्टूबर, 2012 को 0330 बजे मेजर अनूप जोसफ मंजाली ने जम्मू एवं कश्मीर में बटालियन स्तर पर कार्रवाई करने के दौरान अपनी कम्पनी के सैन्य दल का नेतृत्व करते समय धोक के चारों तरफ जिसमें घने जंगल की तरफ पांच कट्टर विदेशी आतंकवादी छिपे हुए थे की पूर्ण घेराबंदी की। पहली ही दृष्टी में यह अधिकारी अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए धोक के प्रवेश द्वार तक रेंगते हुए पहुंचा और आतंकवादियों को भगाने के लिए हैंडग्रेनेड से हमला किया जिसके परिणामस्वरूप एक आतंकवादी का तत्काल सफाया हो गया।

अन्य आतंकवादी की अंधाधुंध गोलीबारी करते जंगल को ओर भाग निकले। इस अधिकारी ने अपने सैन्य दल को खतरा महसूस करते हुए तत्काल सूझबूझ का प्रदर्शन किया और तत्क्षण भागते हुए आतंकवादियों पर नजदीक से हमला कर दिया। उनके नजदीक पहुंचते ही इन्होंने अत्यंत साहसी कार्य का परिचय देते हुए लगभग बीस मीटर की दूरी से दो और खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया।

मेजर अनूप जोसफ मंजाली ने तीन आतंकवादियों का सफाया करने में साधारण शौर्य और अदम्य साहस का प्रदर्शन किया।

(सुरेश यादव)

राष्ट्रपति के विशेष कार्यधिकारी

संख्या 3-प्रेज/2013- राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उनकी वीरता के लिए “शौर्य चक्र” प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं:-

1. **3398295 डब्ल्यू हवलदार वीर सिंह, 13वीं बटालियन द सिख रेजीमेंट**

[पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 19 फरवरी, 2012]

19 फरवरी, 2012 को हवलदार वीर सिंह आपरेशन मेधीपाड़ा में कालम अभियान के कमांडर थे। आतंकवादियों की आवाजाही के संबंध में प्राप्त सूचना के आधार पर मेघालय से असम तक प्रवेश के सभी मार्गों पर जांच चौकियां स्थापित कर दी गई। असम के गोलपाड़ा जिले में स्थित चल जांच चौकी पर लगभग 2300 बजे दो मोटर सवार व्यक्तियों ने दस्तक दी और उन्हें रुकने के लिए कहा गया। चुनौती देने पर उन्होंने एक तरफ गोलीबारी प्रारम्भ कर दी और इसके साथ ही भागने का प्रयास किया। हवलदार वीर सिंह ने आतंकवादियों को तत्काल रुकने की चुनौती दी और उन्हें जवाबी गोलीबारी की चेतावनी दी। रुकने के बजाय आतंकवादी ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने का प्रयास किया।

हवलदार वीर सिंह ने तत्क्षण आगे की ओर तरंगित भूमि की ओर भागते हुए आतंकवादियों का पीछा करना प्रारम्भ किया। भारी गोलीबारी होने के बावजूद भी गैर कमीशन प्राप्त अधिकारी उनका पीछा करने में अटल रहा और नजदीकी भिड़न्त में आतंकवादियों को निष्प्रभावी कर दिया। निष्प्रभावी आतंकवादियों की पहचान उस क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादियों के समूह के उप एरिया कमांडर/वित्त सचिव के रूप में हुई।

हवलदार वीर सिंह ने आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए उत्कृष्ट साहस, असाधारण नेतृत्व और अनुकरणीय संघर्ष करने की क्षमता का एवर्दर्शन किया।

2. **आईसी-65554 एम मेजर संदीप कुमार, 13वीं बटालियन द सिख रेजीमेंट**

[पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 02 अप्रैल, 2012]

दिनांक 01-02 अप्रैल, 2012 को आपरेशन काशीबाड़ी मेजर संदीप कुमार की अगुवाई में किया गया जिसमें आतंकवादी समूह के दो कट्टर आतंकवादियों का सफाया किया गया।

असम के गोलपाड़ा जिले के सामान्य क्षेत्र में कुछ आतंकवादियों की उपस्थिति के संबंध में सूचना के आधार पर मेजर संदीप कुमार की अगुवाई में एक तलाशी अभियान प्रारंभ किया गया। 02 अप्रैल, 2012 को लगभग 0100 बजे गांव के बाहर सूनसान इमारत के अंदर संदिग्ध हलचल देखी गई। मेजर संदीप कुमार ने उत्कृष्ट नेतृत्व और कार्यकुशल कुशाग्रता का परिचय देते हुए घेराबंदी स्थापित करने के लिए तत्काल अपनी सैन्य टुकड़ियों को तैनात किया और यह सुनिश्चित किया कि भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। चुनौती मिलने पर छिपे हुए आतंकवादियों ने इमारत के अंदर से ही अपनी टुकड़ियों के ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी।

मेजर संदीप कुमार, अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए घुटनों के बल बढ़ते हुए इमारत के पास पहुंचे और बाहर से उस इमारत का दरवाजा बंद कर दिया। आतंकवादियों को समर्पण करने के लिए पुनः चेतावनी दी गई परन्तु उन्होंने अपनी ओर से जवाबी गोलीबारी की। अधिकारी ने अपनी सूझबूझ से तत्काल आतंकवादियों का मुकाबला करने और उत्कृष्ट युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए आतंकवादियों को मार गिराने के लिए उस इमारत के बायीं ओर से गोलीबारी करने का आदेश दिया। गोलीबारी में फंसने के बावजूद भी अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा का ध्यान न रखते हुए अधिकारी ने नजदीक से दो आतंकवादियों का सफाया कर दिया।

मेजर संदीप कुमार ने आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए उत्कृष्ट साहस, असाधारण नेतृत्व, युक्तिपरक कुशाग्र बुद्धि एवं मुकाबला करने की दक्षता का प्रदर्शन किया।

3. आईसी-72070पी कैप्टन दिनेश कुमार, 9वीं बटालियन द मद्रास रेजीमेंट

[पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 23 जून, 2012]

कैप्टन दिनेश कुमार द्वारा लांगटिंग में विकसित किया गया नेटवर्क जिसके माध्यम से उन्हें असम के सिल्वर जिले के एक गांव में आतंकवादियों के एक समूह के छः उच्च रैंक के भारी सशस्त्र विद्रोहियों के संयुक्त समूह के बारे में पक्की आसूचना प्राप्त हुई।

विद्रोहियों को बाहर निकालने के लिए 0410 बजे प्रारम्भ किए गए आपरेशन के दौरान कैप्टन दिनेश कुमार ने झूम झोपड़ी जहां पर कट्टर विद्रोही ठहरे हुए थे, की पहचान करते हुए पहरे पर तैनात विद्रोही को नेस्तनाबूद करने के लिए चुपके से आगे बढ़े। अधिकारी की गतिविधि का पता चलते ही विद्रोही ने नजदीक से गोलीबारी आरंभ कर दी। कैप्टन दिनेश कुमार ने स्वयं के जीवन की परवाह किए बिना अकेले ही विद्रोही पर कार्रवाई की और अंततः उसे मार गिराया। उसी समय दूसरे विद्रोही ने अपना हथियार उठाया और जंगल की ओर भागने लगा। अधिकारी ने दुबारा स्वयं को जोखिम में डालते हुए अकेले ही सशस्त्र विद्रोही का पीछा किया और उसे भी मार गिराया।

कैप्टन दिनेश कुमार ने दोनों कट्टर विद्रोहियों का खात्मा करने में अपनी अनुकरणीय वीरता, अटूट साहस और असाधारण नेतृत्व के गुणों का परिचय दिया।

4. 13698975एम नायक कृष्ण कुमार, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स/13वीं सिख लाइट इंफेंट्री बटालियन ग्रुप (मरणोपरांत)

[पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 05 जुलाई, 2012]

नायक कृष्ण कुमार ने 27 फरवरी से 05 जुलाई 2012 तक कांगो गणराज्य में 13वीं सिख लाइट इंफेंट्री बटालियन ग्रुप इंडबैट-2/XXII (मानुस्को) में सेवा की।

नायक कृष्ण कुमार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के एस सी डी बुनागना में भीषण आग जो उस क्षेत्र के नागरिकों के जनजीवन एवं संपत्ति के लिए चुनौती थी, को रोकने और स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए 05 जुलाई 2012 को त्वरित कारवाई बल के हिस्सा थे। 1800 बजे विद्रोहियों ने उस स्थान को अत्यंत प्रभावी आग की चपेट में पहुंचा दिया और आग पर काबू पाने के लिए संघर्ष शुरू हो गया। भयभीत हुए बिना एन सी ओ ने स्थिति का जायजा लिया और विद्रोहियों को जनसंख्या वाले स्थान पर पहुंचने से रोकने के लिए अपना अभियान जारी रखा। स्थिति का तत्काल जायजा लेने, एन सी ओ द्वारा संघर्ष करने और दृढ़ता के निर्धारित नियमों के अनुपालन से विद्रोहियों को आगे बढ़ने में न केवल विलंब हुआ बल्कि इसने अपने साथियों को डटे रहने के लिए भी प्रेरित किया। 2020 बजे नायक कृष्ण कुमार को एक गोली लगी और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी एन सी ओ ने बहादुरी से अपनी आखिरी सांस तक अपना मोर्चा संभाले रखा।

नायक कृष्ण कुमार ने विद्रोहियों का सामना करते हुए दृढ़ साहस, उच्च कोटि के कर्तव्यपरायणता, अक्षुण्ण दृढ़ता और अटूट निष्ठा का प्रदर्शन किया और विद्रोहियों का सामना करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।

5. जेसी-559638एम सूबेदार प्रदीप बेक, बिहार रेजीमेंट/24वीं बटालियन द राष्ट्रीय राईफल्स

[पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 09 जुलाई, 2012]

09 जुलाई, 2012 को यूनिट स्रोत ने जम्मू एवं कश्मीर के गंदरबल गांव में एक कट्टर आतंकवादी की उपस्थिति के बारे में सूचना दी। सूबेदार प्रदीप बेक ने तत्काल गश्त दल का नेतृत्व किया और संदिग्ध मकान के आस-पास घेराबंदी की।

भोर होते ही आतंकवादी घर से बाहर आ गया। चुनौती देने पर उसने पुनः मकान में प्रवेश करने की कोशिश की और तैनात दल पर अंधाधुंध गोलीबारी प्रारंभ कर दी। गैर कमीशन प्राप्त अधिकारी ने अपने दल को जोखिम में देखते हुए तत्काल कुशाग्र बुद्धि का परिचय दिया और आतंकवादी का पचास मीटर तक पीछा किया जब वह खिड़की के सहारे मकान में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था उन्होंने तत्क्षण आतंकवादी पर गोलाबारी आरंभ की और उसे मार गिराया। सूबेदार प्रदीप बेक ने अत्यंत व्यावसायिक दक्षता और युक्ति संगत कुशाग्रता का परिचय देते हुए और व्यक्तिगत सुरक्षा का बिल्कुल ध्यान न रखते हुए सामने से अंधाधुंध गोलीबारी की जिसके परिणामस्वरूप खूंखार आतंकवादी का सफाया हो गया जो गत दशक से उस क्षेत्र में सक्रिय था।

सूबेदार प्रदीप बेक ने आतंकवादियों का सामना करने में प्रेरणादायक नेतृत्व और विशिष्ट वीरता का प्रदर्शन किया।

6. आईसी-65672ए मेजर मनीष पुंज, राजपूत रेजीमेंट/10वीं बटालियन द राष्ट्रीय राईफल्स

[पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 05 अगस्त, 2012]

05 अगस्त, 2012 को जम्मू एवं कश्मीर के किश्तवार जिले के सुदूर क्षेत्र में तीन खूंखार आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में विशिष्ट आसूचना के आधार पर मेजर मनीष पुंज ने पूर्ण गुपचुप और गोपनीयता से विशेष कार्य बल डोडा के साथ सुनियोजित एवं समन्वित ऑपरेशन को अंजाम दिया।

मेजर मनीष की टीम ने पूर्णतः जासूसी तरीके से आतंकवादियों के शरणस्थल को धीरे-धीरे घेर लिया। 0900 बजे आतंकवादी चुनौती मिलते ही आश्चर्य चकित हो गए और तत्काल उनकी टुकड़ी पर अंधाधुंध गोलीबारी प्रारंभ कर दी। मेजर मनीष द्वारा जवाबी गोलीबारी में एक आतंकवादी उस वक़्त मारा गया जब वह घेराबंदी को पार करने का प्रयास कर रहा था। इसके बाद अधिकारी ने दूसरे आतंकवादी पर निशाना साधा जो इसकी सैन्य टुकड़ियों पर अविराम गोलीबारी कर रहा था, बाद में उसे भी नजदीक से मौत के घाट उतार दिया। उनके नेतृत्व में टीम ने बाद में तीसरे आतंकवादी को भी गिरफ्तार कर लिया और इस प्रकार यह मिशन एक अत्यंत व्यावसायिक तरीके से अपने अंजाम पर पहुंचा।

मेजर मनीष पुंज ने असाधारण नेतृत्वगुण, प्रवीणता और अदम्य साहस के साथ आतंकवादियों की गोलीबारी का जवाब दिया।

7. आईसी-68806वाई कैप्टन ए राहुल रमेश, इंजीनियर्स कोर/72वीं सड़क निर्माण कंपनी (मरणोपरांत)

[पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 14 अगस्त, 2012]

3 एवं 4 अगस्त, 2012 को उत्तरकाशी (उत्तराखंड) के सामान्य क्षेत्र में बादल फटने से उत्पन्न हुई दरारों को भरने के लिए 72 सड़क निर्माण कंपनी के कैप्टन ए राहुल रमेश को सड़क की सफाई का जोखिमपूर्ण कार्य जिसमें शिलाखण्डों को हटाना, दिक्परिवर्तन का निर्माण करने के लिए पत्थरों की कटाई करने का कार्य शामिल है, पूरा करने के लिए तैनात किया गया।

14 अगस्त, 2012 को धारसु-गंगोत्री सड़क पर सवारीगढ़ स्थित 110 फीट लम्बे ट्रिपल सिंगल बैली पुल का निर्माण करने से पूर्व कैप्टन ए राहुल रमेश ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा और आराम की परवाह किए बिना सफलतापूर्वक प्रतिकूल मौसम और अत्यंत दुर्गम भू-भाग में वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट धारसु-गंगोत्री सड़क पर 14 बड़े पत्थरों को हटाया। लगभग 0700 बजे कैप्टन ए राहुल रमेश, ब्रिज पार्टी कमान्डर होने के नाते 110 फीट लम्बे ट्रिपल सिंगल बैली पुल का कार्य शुरू करने के लिए निकल पड़े। पुल को सफलतापूर्वक जोड़ा गया। 1430 बजे होम बैंक का पहाड़ी हिस्सा अचानक ध्वस्त हो गया। जब पुल का कुछ हिस्सा नीचे गिरा कैप्टन ए राहुल रमेश ने ड्राइवर को सुरक्षित स्थान

पर धक्का दिया जो रोलर्स पर कार्य कर रहा था और वे रोलर्स को जाम करने के लिए ओ पी पिन के साथ अकेले ही आगे बढ़े जिससे कि पुल को नाले में गिरने से रोका जा सके तथा उन्होंने अन्य व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर जाने के निर्देश दिए। तथापि थोड़े ही समय में दुबारा भूस्खलन होने के कारण पुल पर बड़ा शिलाखण्ड आ गिरा तथा पुल रोलर पर से हट गया तथा दरार में खिसक गया। कैप्टन ए राहुल रमेश पुल की एक शहतीर में फंस गए। इस तरह अधिकारी ने अन्य व्यक्तियों का जीवन बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।

कैप्टन ए राहुल रमेश ने अदम्य साहस, असाधारण कर्तव्य परायणता, बंधुत्व का परिचय दिया तथा अन्य व्यक्तियों का जीवन बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।

8. 2486356पी नायक राजेश्वर सिंह, 16वीं बटालियन द पंजाब रेजीमेंट (मरणोपरांत)

[पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 04 सितम्बर, 2012]

नायक राजेश्वर सिंह को नियंत्रण रेखा पर स्थित अब्दुल सैन्य कुटीर चौकी पर तैनात किया गया था। 04 सितम्बर, 2012 को 1640 बजे जम्मू एवं कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के रातवाजी नार की ओर से शत्रुओं ने इस चौकी पर स्वचालित हथियार से अंधाधुंध गोलीबारी प्रारम्भ कर दी। शत्रुओं द्वारा की जा रही प्रारम्भिक गोलीबारी के दौरान एक व्यक्ति घायल हो गया। नायक राजेश्वर अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने साथी की ओर दौड़ पड़े और उन्होंने देखा कि घुसपैठी घनी झाड़ियों की ओर से चौकी पर गोलीबारी कर रहे हैं। इन्होंने तत्काल अपनी स्थिति में परिवर्तन किया और बढ़ते हुए आतंकवादियों की ओर गोलीबारी शुरू कर दी। इस जवाबी गोलीबारी में एक आतंकवादी मारा गया। इस कार्रवाई के दौरान इनको एक गोली लगी, घायल होने के बावजूद भी इन्होंने जंग को जारी रखा जिससे दूसरा आतंकवादी घायल हो गया। इनकी दुर्दमनीय इच्छाशक्ति और असाधारण वीरता ने दुश्मनों को हमले को बंद करने पर मजबूर कर दिया और अंततः इस सैन्य चौकी से दुश्मनों को मार भगाने में सफलता प्राप्त की।

नायक राजेश्वर सिंह, ने अदम्य धैर्य तथा असाधारण वीरता का परिचय दिया तथा आतंकवादियों के साथ लड़ाई में राष्ट्र के प्रति अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।

9. 2486445एन नायक अनिल कुमार, 16वीं बटालियन पंजाब रेजीमेंट (मरणोपरांत)

[पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 04 सितम्बर, 2012]

नायक अनिल कुमार को वास्तविक रेखा पर स्थित अब्दुल सैन्य कुटीर चौकी पर तैनाती दी गई। 04 सितम्बर, 2012 को 1640 बजे इस चौकी पर जम्मू एवं कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के रातवाजी नार की तरफ से शत्रु द्वारा स्वाचालित हथियार से भारी गोलीबारी की गई। शत्रु द्वारा की जा रही प्रारम्भिक गोलीबारी के दौरान एक व्यक्ति घायल हो गया। नायक अनिल कुमार ने मैनिंग मीडियम मशीनगन से तत्काल जवाबी गोलीबारी प्रारम्भ की। नायक अनिल कुमार ने अत्यधिक

चतुराई, अदम्य साहस का परिचय देकर और यह जानकर कि शत्रु चौकी के समीप है, इन्होंने तत्क्षण बंकर से मीडियम मशीनगन को उठाया और इसे निकाला तथा प्रभावी रूप से शेष आतंकवादियों से मोर्चा लिया जिसके परिणामस्वरूप एक आतंकवादी घायल हो गया तथा शेष को मार भगाया। जवाबी कार्रवाई में इनको भी गोली लगी। घायल होने के बाद भी इन्होंने शत्रु की गतिविधि में लिस व्यक्तियों पर गोलीबारी करना जारी रखा। बाद में वे अपनी चोटों के कारण 25 सितम्बर, 2012 को शहीद हो गए।

नायक अनिल कुमार ने आतंकवादियों से मुकाबला करने में अत्यधिक साहस, पहल शक्ति एवं असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया।

10. लेफ्टिनेंट कमांडर इंदरजीत सिंह (05871 टी)

[पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 11 सितम्बर, 2012]

11 सितम्बर, 2012 को प्रातः 6 बजे लेफ्टिनेंट कमांडर इंदरजीत सिंह मुख्यालय पश्चिमी नौसेना आपाती फायर प्रतिक्रिया दल के टीम लीडर की हैसियत से एम वी एम्सटर्डम पुल पर लगी भयंकर आग को बुझाने के लिए पहुंचे। डेकों के नीचे एक शक्तिशाली विस्फोट होने के परिणामस्वरूप स्वतः ही प्रचण्ड आग लग गई जिसके कारण मोटर जलयान के कंपार्टमेंटों के भीतर प्रचुर मात्रा में जहरीली गैस फैल गई थीं। जिस कंपार्टमेंट में आग लगी थी उसके ठीक ऊपर अत्यंत ज्वलनशील द्रव से भरे तीन अतिरिक्त कंटेनर पड़े थे। इससे भी प्रचंड विस्फोट और समुद्री महासंकट की स्थिति पैदा होने की आशंका बन गई। संकटपूर्ण स्थितियों में, जिन्हें उफनता हुआ समुद्र और आंधी-पानी वाला मौसम और खतरनाक बना रहा था अधिकारी ने अपनी टीम का संचालन करने में उच्च कोटि की असाधारण बहादुरी का परिचय दिया। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी वह पीछे नहीं हटे और अविराम अपने कार्य को पूरा करने में अपने को झोंक दिया। आग लगने के स्थान का पता लगाने में आरम्भ में वे असफल रहे, एक अलग तरीके से दूसरा प्रयास किया गया, जहां कि उन्हें अंधेरे में भयानक परिस्थितियों में 200 फीट से अधिक चलना था। इस प्रयास के परिणामस्वरूप अंततः आग लगने के स्थान पर ही आग को सीमित करने में असफलता मिली और इससे सीमित अग्निशामक प्रयास से विवेकपूर्ण और संकेंद्रित उपयोग सुनिश्चित हो पाया।

लेफ्टिनेंट कमांडर इंदरजीत सिंह की बहादुरी व अनुकरणीय नेतृत्व से एम्सटर्डम पुल के 24 क्रू सदस्यों के जीवन को बचाया जा सका और मंबई तट से लगे बड़े समुद्री/पर्यावरणीय विध्वंस को भी रोका जा सका।

11. आईसी-74882एफ लेफ्टिनेंट मनीश सिंह, 9वीं बटालियन द पैराच्युट रेजिमेंट (विशेष बल)

[पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 25 सितम्बर, 2012]

25 सितम्बर, 2012 को लेफ्टिनेंट मनीश सिंह के दस्ते को जम्मू एवं कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के सामान्य क्षेत्र में सीढ़ीनुमा मक्के के खेतों के माध्यम भागने वाले आतंकवादियों का पता लगाने का

कार्य सौंपा गया। तलाशी अभियान के दौरान, एक आतंकवादी ने अचानक अंधाधुंध गोलीबारी प्रारंभ कर दी जिसमें लेफ्टिनेंट मनीश सिंह को चोट आई और इनके दस्ते को भी क्षति पहुंची। चोटों की परवाह किए बिना यह अधिकारी घुटनों के बल आगे बढ़ा और उन पर गोलीबारी की। मुठभेड़ के दौरान इस अधिकारी ने अपने पद, गंभीर चोटों और रक्त स्राव का ध्यान न रखते हुए दुश्मनों को स्थान खाली करने के लिए मजबूर कर दिया। अंत में जैसे ही आतंकवादी ने इन पर हमला किया, इन्होंने बिल्कुल निकट से उस पर गोली चलाकर उसे मार गिराया। इनके इस साहसपूर्ण कार्रवाई ने इनके साथियों की सुरक्षा सुनिश्चित की और सिविल नागरिकों के घरों को क्षति होने से बचाया।

लेफ्टिनेंट मनीश सिंह ने आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अनुकरणीय साहस, उत्कृष्ट वीरता तथा असाधारण नेतृत्व का प्रदर्शन किया।

सुरेश यादव

राष्ट्रपति के विशेष कार्यधिकारी

संख्या 4-प्रेज/2013-राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "परम विशिष्ट सेवा मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं:-

1. आईसी- 25839 डब्ल्यू लेफ्टिनेंट जनरल बलजीत सिंह,
विशिष्ट सेवा मेडल, तोपखाना रेजिमेंट (सेवानिवृत्त)
2. आईसी- 27265एन लेफ्टिनेंट जनरल बालाकृष्णन वेणुगोपाल नायर,
अति विशिष्ट सेवा मेडल, तोपखाना रेजिमेंट, डीएसएससी, विलिंग्टन
3. आईसी- 27290एम लेफ्टिनेंट जनरल रमेश हलगली,
अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, इंफैंट्री
4. आईसी- 27701ए लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सिध्दु,
अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, कवचित कोर (सेवानिवृत्त)
5. आईसी- 27767डब्ल्यू लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप भल्ला,
अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेना आयुद्ध कोर (सेवानिवृत्त)
6. आईसी- 27782एल लेफ्टिनेंट जनरल पनेमंगलुर गोपालाकृष्णा कामथ,
अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, इंफैंट्री/ सेना युद्ध कालेज
7. आईसी- 27972एक्स लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञान भूषण,
उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, इंफैंट्री/
मुख्यालय दक्षिण पश्चिमी कमान
8. आईसी- 27979एफ लेफ्टिनेंट जनरल जतिन्दर सिंह बाजवा,
उत्तम युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, इंफैंट्री
9. आईसी- 27990ए लेफ्टिनेंट जनरल मुनीश सिब्बल,
अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड बार, इंफैंट्री
10. आईसी- 27994डब्ल्यू लेफ्टिनेंट जनरल पलविंद्र सिंह भल्ला,
अति विशिष्ट सेवा मेडल, कवचित कोर/ मुख्यालय राष्ट्रीय कैडेट कोर
11. आईसी- 30016ए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चंद्रा चैत,
अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, कवचित कोर/ मुख्यालय मध्यम कमान

12. आईसी- 30068 डब्ल्यू लेफ्टिनेंट जनरल सुरेन्द्र प्रताप तनवर,
अति विशिष्ट सेवा मेडल, तोपखाना रेजिमेंट (सेवानिवृत्त)
13. आईसी- 30085 डब्ल्यू लेफ्टिनेंट जनरल जगदर्शन सिंह रावत,
सेना मेडल, आसूचना कोर/ सेना आसूचना प्रशिक्षण स्कूल एंड डिपो
14. आईसी- 30118 डब्ल्यू लेफ्टिनेंट जनरल अंजन मुखर्जी,
अति विशिष्ट सेवा मेडल, तोपखाना रेजिमेंट
15. आईसी- 30353 पी लेफ्टिनेंट जनरल सैय्यद अता हसनैन,
उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल एंड
बार, इंफैंट्री
16. आईसी- 30516 एक्स लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह,
अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना वायु रक्षा
17. आईसी- 30687 के लेफ्टिनेंट जनरल संजीव लांगर,
अति विशिष्ट सेवा मेडल, कवचित कोर
18. आईसी- 30722 एफ लेफ्टिनेंट जनरल विजय शर्मा,
अति विशिष्ट सेवा मेडल, इन्जीनियर्स कोर
19. एमआर 03471 वाई लेफ्टिनेंट जनरल गौतम रविन्द्र नाथ,
सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेना चिकित्सा कोर
20. वाइस एडमिरल कन्नन भागवथेश्वरन
अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल (50431-आर) (सेवानिवृत्त)
21. वाइस एडमिरल अनिल कुमार चोपड़ा,
अति विशिष्ट सेवा मेडल (01627-वाई)
22. वाइस एडमिरल सतीश सोनी,
अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल (01683-जेड)
23. एयर मार्शल अनिल चोपड़ा,
अ वि से मे, वा मे, वि से मे (13368) उड़ान पायलट (सेवानिवृत्त)
24. एयर मार्शल सिम्हाकुट्टी वर्तमान,
अ वि से मे, वा मे, वि से मे (13606) उड़ान पायलट (सेवानिवृत्त)
25. एयर मार्शल सतीश पाल सिंह,
अ वि से मे, वा मे (13770) उड़ान पायलट (सेवानिवृत्त)
26. एयर मार्शल अरुण राहा,
अ वि से मे, वा मे (13910) उड़ान (पायलट)
27. एयर मार्शल राजेन्द्र सिंह,
अ वि से मे, वा मे (13980) उड़ान (पायलट)
28. एयर मार्शल जगदीश चंद्रा
अ वि से मे, वि से मे, (14613) वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रानिकी)

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्यधिकारी

संख्या 5-प्रेज/2013-राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को युद्ध स्थिति के दौरान असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "उत्तम युद्ध सेवा मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं:-

1. आईसी- 30351 के लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह,
अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, इंफैंट्री/ मुख्यालय पूर्वी कमान
2. आईसी- 36269 एल लेफ्टिनेंट जनरल अनिल सिंह नंदल,
अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, इंफैंट्री/ मुख्यालय 16 वीं कोर
3. आईसी- 31052 एक्स लेफ्टिनेंट जनरल शक्ति गुरुंग,
अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, इंफैंट्री/मुख्यालय 4 वीं कोर

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्यधिकारी

संख्या 6-प्रेज/2013-राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "अति विशिष्ट सेवा मेडल का बार" पुरस्कार प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं:-

1. आईसी- 27325 एक्स लेफ्टिनेंट जनरल राजेश कोछड ,
अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, ईएमई (सेवानिवृत्त)
2. आईसी- 27967 एम लेफ्टिनेंट जनरल सुरिन्द्र पाल सिंह,
अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, तोपखाना रेजिमेंट (सेवानिवृत्त)
3. आईसी- 30708 पी लेफ्टिनेंट जनरल अशोक कुमार चौधरी,
अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, इंफैंट्री/ मुख्यालय बंगाल
एरिया
4. आईसी- 31324 एम लेफ्टिनेंट जनरल के.सुरेन्द्रनाथ,
अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, कवचित कोर/मुख्यालय
33वीं कोर
5. वाइस एडमिरल प्रदीप चौहान,
अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल (01610-एच)
6. वाइस एडमिरल एम.पी. मुरलीधरन,
अति विशिष्ट सेवा मेडल, एनएम (01587-एफ)

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्यधिकारी

संख्या 7-प्रेज/2013-राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "अति विशिष्ट सेवा मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं:-

1. आईसी- 27269 के लेफ्टिनेंट जनरल सिसीर सुभ्रा सेनगुप्ता,
विशिष्ट सेवा मेडल, इन्जीनियर्स कोर (सेवानिवृत्त)

2. आईसी- 27969 एक्स लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पन्त,
विशिष्ट सेवा मेडल, सिगनल्स कोर/मिलिट्री कालेज आफ टेलीकम्युनिकेशन इंजिनियरिंग,
मऊ
3. आईसी- 30462 एफ लेफ्टिनेंट जनरल अमरजीत सिंह छब्बेवाल,
युद्ध सेवा मेडल, कवचित कोर/मुख्यालय दूसरी कोर
4. आईसी- 30702 एन लेफ्टिनेंट जनरल फिलिप कम्पोज,
विशिष्ट सेवा मेडल, मेकानाइज्ड इंफैंट्री/मुख्यालय 12वीं कोर
5. आईसी- 31007एल लेफ्टिनेंट जनरल अनिल मलिक,
कवचित कोर/कवचित कोर सेंट्रल एंड स्कूल
6. आईसी- 31341एम लेफ्टिनेंट जनरल संजीव आनंद,
विशिष्ट सेवा मेडल, मेकानाइज्ड इंफैंट्री/मुख्यालय 10वीं कोर
7. आईसी- 31505एक्स लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रतो मित्रा,
सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, इंफैंट्री/मुख्यालय एटीएनके एण्ड के एरिया
8. आईसी- 31521पी लेफ्टिनेंट जनरल सुरेन्द्र हरि कुलकर्णी,
विशिष्ट सेवा मेडल एण्ड बार, कवचित कोर/मुख्यालय 21वीं कोर
9. आईसी- 31917वाई लेफ्टिनेंट जनरल सुरेन्द्र मोहन मेहता,
सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल एण्ड बार, इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड मेकेनिकल इन्जीनियर्स
कोर/मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड मेकेनिकल इन्जीनियर्स, सिकन्दराबाद
10. एमआर-03516एन लेफ्टिनेंट जनरल मन्दीप सिंह,
विशिष्ट सेवा मेडल, सेना चिकित्सा कोर (सेवानिवृत्त)
11. एमआर-04125पी लेफ्टिनेंट जनरल सुरेन्द्र सिंह पंवार,
सेना मेडल, सेना चिकित्सा कोर / कमान अस्पताल मुख्यालय
दक्षिण कमान
12. डीआर-10295 पी लेफ्टिनेंट जनरल स्वामीनाथन मुरली मोहन,
सेना दंत चिकित्सा कोर
13. आईसी-30817एफ मेजर जनरल अजय कुमार चतुर्वेदी,
विशिष्ट सेवा मेडल, इन्जीनियर्स कोर (सेवानिवृत्त)
14. आईसी- 34086 डब्ल्यू मेजर जनरल बाल कृष्ण शर्मा,
सेना मेडल एंड बार, इंफैंट्री (सेवानिवृत्त)
15. आईसी- 34350वाई मेजर जनरल कमल जीत सिंह,
कवचित कोर
16. आईसी- 34385पी मेजर जनरल अनिल कुमार आहूजा,
सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल एंड बार, तोपखाना रेजिमेंट
17. आईसी- 34396एफ मेजर जनरल रविन्द्रन नारायण नायर,
सेना मेडल, इंफैंट्री / मुख्यालय 21वीं पर्वतीय डिवीजन
18. आईसी- 34829एन मेजर जनरल संजीव तलवार,
इन्जीनियर्स कोर
19. आईसी- 35173डब्ल्यू मेजर जनरल रेमंड जोसेफ नोरोन्हा,
सेना मेडल, इंफैंट्री / मुख्यालय 8वीं पर्वतीय डिवीजन

20. आईसी- 35206 डब्ल्यू मेजर जनरल कोनसम हिमालय सिंह,
युद्ध सेवा मेडल, इंफैंट्री/मुख्यालय 25वीं इंफैंट्री डिवीजन
21. आईसी- 35471 एम मेजर जनरल बिपिन रावत,
युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, इंफैंट्री/मुख्यालय 19वीं इंफैंट्री डिवीजन
22. आईसी- 35487 एक्स मेजर जनरल नरिन्दर पाल सिंह हीरा,
सेना मेडल, इंफैंट्री/मुख्यालय 10वीं इंफैंट्री डिवीजन
23. आईसी- 35626 डब्ल्यू मेजर जनरल उमेश कुमार गुरुंग,
युद्ध सेवा मेडल, इंफैंट्री/मुख्यालय आई जी असम राइफल्स, (दक्षिण)
24. आईसी- 37022 डब्ल्यू मेजर जनरल संजय कुलकर्णी,
शौर्य चक्र, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, इंफैंट्री/मुख्यालय, 56वीं इंफैंट्री डिवीजन
25. आईसी- 37204 के मेजर जनरल बिनोय पुनेन,
विशिष्ट सेवा मेडल, इंफैंट्री/मुख्यालय, 57वीं पर्वतीय डिवीजन
26. एमआर- 03691 एच मेजर जनरल राजन चौधरी,
विशिष्ट सेवा मेडल, सेना चिकित्सा कोर
27. जेसी-520361 एच सुबेदार मेजर विजय कुमार,
सेना मेडल, डोगरा रेजिमेंट/इंफैंट्री स्कूल, मऊ
28. रियर एडमिरल राकेश पंडित, एनएम (01700-एन)
29. रियर एडमिरल किशोर ओंकार ठाकरे, एनएम (40767-ए)
30. रियर एडमिरल अभय रघुनाथ कर्वे (02118-एन)
31. रियर एडमिरल सुधाकर थुरुमाला, एनएम (60301-वाई)
32. रियर एडमिरल करमबीर सिंह (02151-एन)
33. एयर मार्शल हेरीकुट्टु बाबु राजाराम,
वि से मे (14939) प्रशासन/एयर ट्रैफिक कंट्रोलर
34. एयर वाइस मार्शल दत्तात्रय केशव पांडे,
वि से मे (15081) वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रानिकी)
35. एयर वाइस मार्शल नरेन्द्र बहादुर सिंह,
वि से मे (15635) वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रानिकी)
36. एयर वाइस मार्शल बिपिन बिहारी प्रसाद सिन्हा (15748) प्रशासन
37. एयर वाइस मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया,
वा मे (16026) उड़ान (पायलट)
38. एयर वाइस मार्शल सरदार हरपाल सिंह,
वा मे (16071) उड़ान (पायलट)
39. एयर कमोडोर अश्विनी कुमार नाभ,
वा मे (16608) उड़ान (पायलट)
40. एयर कमोडोर सुरेश सिंह,
वि से मे (16941) वैमानिकी इंजीनियरी (इलेक्ट्रानिकी)
41. एयर कमोडोर मानवेन्द्र सिंह,
वीर चक्र, वि से मे (16983) उड़ान (पायलट)

42. एयर कमोडोर संदीप सिंह,
वा मे (17312) उड़ान (पायलट)
43. एयर कमोडोर राजेन्द्र नलसिंहराव गायकवाड,
वि से मे (17845) उड़ान (पायलट)
44. एयर कमोडोर राधाकृष्णन रधीश,
वा मे (17853) उड़ान (पायलट)

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्यधिकारी

संख्या 8-प्रेज/2013-राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को युद्ध स्थिति के दौरान उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "युद्ध सेवा मेडल" पुरस्कार प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं:-

1. आईसी- 38796एल ब्रिगेडियर सुनील यादव,
जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स/ मुख्यालय 10वीं इंफैंट्री ब्रिगेड
2. आईसी- 41521एच ब्रिगेडियर हर्ष गुप्ता,
सिख लाइट इंफैंट्री / मुख्यालय 68वीं पर्वतीय ब्रिगेड
3. आईसी- 41672एफ ब्रिगेडियर संजीव कुमार शर्मा,
राजपूताना राइफल्स/ मुख्यालय 109वीं इंफैंट्री ब्रिगेड
4. आईसी- 41885पी ब्रिगेडियर यू सुरेश कुमार,
विशिष्ट सेवा मेडल, पंजाब रेजिमेंट / मुख्यालय 5वीं सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स
5. आईसी- 41927डब्ल्यू ब्रिगेडियर शिवेन्दर सिंह,
गढ़वाल राइफल्स/ मुख्यालय, 12वीं सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स
6. आईसी- 42278एच ब्रिगेडियर बिजय धोज राई,
पैराच्युट रेजिमेंट/ मुख्यालय 7वीं सेक्टर असम राइफल्स
7. आईसी- 42389ए ब्रिगेडियर राजु बग्गावली सोमाशेखर,
जाट रेजिमेंट/ मुख्यालय 12वीं इंफैंट्री ब्रिगेड
8. आईसी- 42491एच ब्रिगेडियर चांदी प्रसाद सांगरा,
मराठा लाइट इंफैंट्री/ मुख्यालय 79वीं पर्वतीय ब्रिगेड
9. आईसी- 45244ए ब्रिगेडियर संजय कुमार राव,
सिख रेजिमेंट/ मुख्यालय 102वीं इंफैंट्री ब्रिगेड
10. आईसी- 50623ए कर्नल सी के राजेश,
सेना मेडल एंड बार, ब्रिगेड आफ द गार्ड्स / 21वीं बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स
11. आईसी- 54023पी कर्नल संजीव मेहरोत्रा,
9वीं बटालियन द सिख लाइट इंफैंट्री
12. आईसी-55474एफ कर्नल मोहित खोखरन,
13वीं बटालियन द सिख रेजिमेंट

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्यधिकारी

संख्या 9-प्रेज/2013-राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "विशिष्ट सेवा मेडल का बार" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं:-

1. आईसी- 34648 एच मेजर जनरल सुरेश चन्द्र जैन, विशिष्ट सेवा मेडल, ई.एम.ई. (सेनानिवृत्त)
2. आईसी- 35479 वाई मेजर जनरल बलवंत सिंग नेगी, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, इन्फैंट्री/मुख्यालय प्रति विद्रोहिता बल(यूनिफार्म)
3. आईसी- 36905 एन मेजर जनरल मेलाचेवल श्रीनिवासन सन्थना कृष्णन, विशिष्ट सेवा मेडल, सेना आयुद्ध कोर (सेवानिवृत्त)
4. आईसी- 41464 एम ब्रिगेडियर तेजपाल सिंह रावत, विशिष्ट सेवा मेडल, इन्जीनियर्स कोर/ मुख्यालय सीई(पी) बिकोन

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्यधिकारी

संख्या 10-प्रेज/2013-राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "विशिष्ट सेवा मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं:-

1. आईसी-31642 डब्ल्यू मेजर जनरल नृसिंह प्रसाद पाढी, इन्जीनियर्स कोर /मुख्यालय दक्षिणी कमान
2. आईसी-34014एम मेजर जनरल अमित शर्मा, कवचित कोर/मुख्यालय 54वीं इन्फैंट्री डिवीजन
3. आईसी-34338एक्स मेजर जनरल गुरदर्शन सिंह शेरगिल, इन्फैंट्री/मुख्यालय प्रतिविद्रोहिता बल (रोमियो)
4. आईसी-34436एक्स मेजर जनरल खुर्शीद मानेक बलसारा, सेना मेडल, इन्फैंट्री / मुख्यालय तीसरी इन्फैंट्री डिवीजन
5. आईसी-34708एम मेजर जनरल गोपाल सिंह बिष्ट, कोर आफ सिगनल्स / मुख्यालय पश्चिमी कमान
6. आईसी-34760पी मेजर जनरल प्रवीण बक्शी, कवचित कोर/मुख्यालय दक्षिणी कमान
7. आईसी-35115एम मेजर जनरल जगबीर सिंह, मेकानाइज्ड इन्फैंट्री / मुख्यालय 16वीं इन्फैंट्री डिवीजन
8. आईसी-35201एक्स मेजर जनरल अजेय कुमार सहगल, सेना वायु रक्षा/सलेक्शन सेंटर सेंट्रल, भोपाल
9. आईसी-35307के, मेजर जनरल वेलायुधन नायर प्रसाद, सेना मेडल, इन्फैंट्री/मुख्यालय 17वीं पर्वतीय डिवीजन
10. आईसी- 35481डब्ल्यू मेजर जनरल राजीव नारायनन, कवचित कोर/ मुख्यालय दूसरी पर्वतीय डिवीजन
11. आईसी-35515वाई मेजर जनरल भबानी एस दास, सेना मेडल, इन्फैंट्री/ मुख्यालय इन्स्पेक्टर जनरल असम राइफल्स (उत्तर)

12. आईसी-35586ए मेजर जनरल भूपिन्दर सिंह सरोया,
मेकानाइज्ड इंफैंट्री/मुख्यालय पूर्वी कमान
13. आईसी-35610एल मेजर जनरल बलबीर सिंह सन्धु,
सेना सेवा कोर/मुख्यालय दक्षिण पश्चिमी कमान
14. आईसी-35650एम मेजर जनरल बोबी चेरियन मैथ्युज
इंफैंट्री/मुख्यालय 27वीं पर्वतीय डिवीजन
15. आईसी-36786एच मेजर जनरल गुरचरन सिंह लाम्बा,
कोर ऑफ सिगनल्स/मुख्यालय दक्षिण पश्चिमी कमान
16. आईसी-36913एम मेजर जनरल ललित कुमार रामपाल,
इंफैंट्री/अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, गया
17. आईसी-37297के मेजर जनरल रत्न कुमार मट्टू,
इन्जीनियर्स कोर
18. आईसी-38621एच मेजर जनरल प्रद्युत कुमार मल्लिक,
कोर ऑफ सिग्नलस /मुख्यालय मध्य कमान
19. एमआर-03592ए मेजर जनरल भीम सिंह वर्मा,
आर्मी मेडिकल कोर/मुख्यालय उत्तरी कमान
20. आईसी-35923के ब्रिगेडियर जगबीर सिंह चीमा,
सिख रेजिमेंट/ मुख्यालय 16वीं कोर
21. आईसी-37977के ब्रिगेडियर उमर फारुख ए,
कोर ऑफ सिगनल्स/मुख्यालय 5वीं सिगनल ग्रुप
22. आईसी-39076डब्ल्यू ब्रिगेडियर प्रवीण दिक्षित,
कवचित कोर/मुख्यालय दक्षिण पश्चिमी कमान
23. आईसी-39180के ब्रिगेडियर राजीव मिश्रा,
तोपखाना रेजिमेंट
24. आईसी-39457एक्स ब्रिगेडियर मोहनदीप सिंह घुरा
राजपुताना राइफल्स/डिफेंस सर्विसिज स्टाफ कालेज, विलिंगटन
25. आईसी-40366ए ब्रिगेडियर आनंद सिंह रावत,
सेना मेडल, सिख लाइट इंफैंट्री / पूर्वा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश सब एरिया
26. आईसी-40395पी ब्रिगेडियर निश्चय बालन,
महार रजिमेंट/मुख्यालय दिल्ली एरिया
27. आईसी-40824एल ब्रिगेडियर अजय सेठ,
गढ़वाल राइफल्स/मुख्यालय 6 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स
28. आईसी-41072वाई ब्रिगेडियर राजीव सिरोही,
ग्रेनेडियर्स/मुख्यालय 163वीं इंफैंट्री ब्रिगेड
29. आईसी-41235एफ ब्रिगेडियर संजीव सैनी,
गोरखा राइफल्स/मुख्यालय 161वीं इंफैंट्री ब्रिगेड
30. आईसी-41478एम ब्रिगेडियर शैलेश सदाशीव तिनईकर,
सेना मेडल, पैराच्युट रेजिमेंट/मुख्यालय 11वीं पर्वतीय ब्रिगेड

31. आईसी-41488डब्ल्यू ब्रिगेडियर राजीव चौधरी,
इन्जीनियर्स कोर /मुख्यालय 471वीं इन्जीनियर ब्रिगेड
32. आईसी-41566एच ब्रिगेडियर विवेक क्रिशन सिंह,
कवचित कोर/ 274वीं इकाई
33. आईसी-41860एल ब्रिगेडियर शान्तनु दयाल,
गढ़वाल राइफल्स/मुख्यालय 181वीं पर्वतीय ब्रिगेड
34. आईसी-41914 वाई ब्रिगेडियर प्रीतम बिशनोई,
कोर ऑफ सिगनल्स/मुख्यालय उत्तरी कमान
35. आईसी-42288एम ब्रिगेडियर अनिल पुरी,
इन्जीनियर्स कोर/मुख्यालय 81वीं पर्वतीय ब्रिगेड
36. आईसी-42400एन ब्रिगेडियर तुमुल वर्मा,
इलेक्ट्रानिकल एंड मेकेनिकल इंजिनियरिंग कोर /508वीं आर्मी बेस वर्कशाप
37. आईसी-42485पी ब्रिगेडियर राज सिन्हा,
5वीं बटालियन द गोरखा राइफल्स (आगामी सेना)/मुख्यालय 76वीं इंफैंट्री ब्रिगेड
38. आईसी-42516के ब्रिगेडियर ओम प्रकाश गुलिया,
सेना मेडल, बिहार रेजिमेंट/मुख्यालय 330वीं इंफैंट्री ब्रिगेड
39. आईसी-42552पी ब्रिगेडियर सर्वजीत सिंह,
इन्जीनियर्स कोर/मुख्यालय तीसरी कोर
40. आईसी-43169एच ब्रिगेडियर महेन्द्र सिंह
इन्जीनियर्स कोर
41. आईसी-45126एम ब्रिगेडियर नरेन्द्र कुमार,
सेना मेडल, मद्रास रेजिमेंट/मुख्यालय 10वीं सेक्टर असम राइफल्स
42. आईसी-45175पी ब्रिगेडियर रणधीर सिंह,
मेकानाइज्ड इंफैंट्री/मुख्यालय 192वीं पर्वतीय ब्रिगेड
43. आईसी-45191एम ब्रिगेडियर राजेन्द्र सिंह शेखावत,
सेना मेडल, राजपूताना राइफल्स/मुख्यालय 114वीं इंफैंट्री ब्रिगेड
44. एमआर-04139पी ब्रिगेडियर मद्दुर दौरेस्वामी अयांगर वेंकटेश,
सेना चिकित्सा कोर/डायरेक्टरेट जनरल आर्मड फोर्सेस मेडिकल सर्विसिस
45. एमआर-04758एच ब्रिगेडियर दर्शन सिंह भाकुनी
सेना चिकित्सा कोर/सेना अस्पताल (रिसर्च एंड रेफरल)
46. एसएल-03159डब्ल्यू ब्रिगेडियर जसबीर सिंह जसवाल,
जनरल सर्विस
47. आईसी-41977एफ कर्नल धर्मवीर सिंह सुहाग
4/9वीं बटालियन द गोरखा राइफल्स
48. आईसी-43842वाई कर्नल मानिक कुमार दास,
सेना मेडल एंड बार, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इंफैंट्री
49. आईसी-44057पी कर्नल राजीव मनकोटिआ,
4 बटालियन द गोरखा राइफल्स

50. आईसी-46002के कर्नल प्रवीण कुमार,
सेना मेडल, जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट/मुख्यालय 15वीं कोर
51. आईसी-47047 डब्ल्यू कर्नल जय सिंह यादव,
डोगरा रेजिमेंट
52. आईसी-47718पी कर्नल जयवीर सिंह सारन,
मद्रास रेजिमेंट/इंफैंट्री स्कूल, मऊ
53. आईसी-48061पी कर्नल सुधानवा अत्रे,
पैराच्युट रेजिमेंट/12वीं बटालियन द असम राइफल्स
54. आईसी-49286के कर्नल अनुराग छिब्रर,
ब्रिगेड आफ द गार्ड्स
55. आईसी-51018वाई कर्नल उमेद सिंह राठौड़,
667वीं सेना विमानन स्कवाड्रन (टोही तथा प्रेक्षण)
56. आईसी-51957एफ कर्नल विवेक सिंह,
61वीं इन्जीनियर रेजिमेंट
57. आईसी-53582एम कर्नल चंदन सिंह पठानिया,
17वीं बटालियन द महार रेजिमेंट
58. आईसी-53596एम कर्नल दीपक शर्मा,
20वीं बटालियन द कुमाऊं रेजिमेंट
59. आईसी-54894पी कर्नल सुनील दत्त उपाध्याय,
तोपखाना रेजिमेंट /315वीं बटालियन द फील्ड रेजिमेंट
60. आईसी-54995एच कर्नल चंद्र शेखर भाटी,
दूसरी बटालियन द ग्रनेडियर्स
61. एमआर-05065एक्स कर्नल रंजीत सिंह बावा,
सेना चिकित्सा कोर/92वीं बेस अस्पताल
62. आईसी-62115डब्ल्यू मेजर रणवीर सिंह जमवाल,
जाट रेजिमेंट/भारतीय सेना वुमेन एवरेस्ट एक्सपीडिशन-2012
63. एमआर-08413वाई मेजर निखीटून्यो लिन्य,
सेना चिकित्सा कोर/भारतीय सेना वुमेन एवरेस्ट एक्सपीडिशन-2012
64. डब्ल्यूएस-00688एक्स मेजर नेहा भटनागर,
इन्जीनियर्स कोर/भारतीय सेना वुमेन एवरेस्ट एक्सपीडिशन-2012
65. एसएस-44235एम कैप्टन स्मिथा एल,
कोर ऑफ सिगनल्स/ भारतीय सेना वुमेन एवरेस्ट एक्सपीडिशन-2012
66. डब्ल्यूएस-01363डब्ल्यू कैप्टन नम्रता राठौर,
इन्जीनियर्स कोर/भारतीय सेना वुमेन एवरेस्ट एक्सपीडिशन-2012
67. डब्ल्यूएस-01369एक्स कैप्टन पूनम सांगवान,
सेना आयुध कोर/ भारतीय सेना वुमेन एवरेस्ट एक्सपीडिशन-2012
68. डब्ल्यूएस-01399पी कैप्टन प्राची आर गोले,
सेना आयुध कोर/भारतीय सेना वुमेन एवरेस्ट एक्सपीडिशन-2012

69. डब्ल्यूएस-01474एन कैप्टन दीपिका राथौर,
सेना आयुध कोर/भारतीय सेना वुमेन एवरेस्ट एक्सपीडीशन-2012
70. जेसी-530339एल सूबेदार तेजपाल सिंह,
सेना मेडल, गढ़वाल राइफल्स/भारतीय सेना वुमेन एवरेस्ट एक्सपीडीशन-2012
71. जेसी-539371एफ सूबेदार राजेन्द्र सिंह जलाल,
कुमाऊं रेजीमेंट/ भारतीय सेना वुमेन एवरेस्ट एक्सपीडीशन-2012
72. 15185088एल हवलदार लेसिराम देबेन्द्रो सिंह,
तोपखाना रेजिमेंट, ए एस आई, पुणे
73. रियर एडमिरल अनिल कुमार चावला एन.एम. (02312-बी)
74. रियर एडमिरल शीशतला राजशेखर सरमा (50832-ए)
75. कमोडोर अस्पी कावस्जी, एनएम (02190-ए)
76. कमोडोर श्रीनिवास कानुगो (50781-के)
77. कमोडोर अजय सक्सेना (02490-एच)
78. कमोडोर प्रदीप राणा (02688-एच)
79. कमोडोर विजेश कुमार गर्ग (02670-टी)
80. कमोडोर संजीव राज कपूर (02796-बी)
81. कमोडोर किरण माणिकराव देशमुख (41147-आर)
82. कमोडोर जी के हरीष (41159-टी)
83. सर्जन कमोडोर वेंकट सर्वेस्वारा सुब्बाराव रायली (75271-डब्ल्यू)
84. सर्जन कमोडोर गिरीश गुप्ता, एनएम (75445-आर)
85. कैप्टन सुशान्त दाम (03178-वाई)
86. कैप्टन थानिगाई आनन्दन अरूमूगम (03643-बी)
87. कमांडर दिनेश सिंह (03289-जेड)
88. कान्दाही आनन्त, एमसीईआरए II, (176210-बी)
89. एयर कमोडोर कचेरी मडथिल सिवरामा मेनन प्रदीप (15818)
वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रानिकी)
90. एयर कमोडोर सुनील जयंत नानोडकर, वा मे (16555) उड़ान (पायलट)
91. एयर कमोडोर सौमित्र कुमार डे (17030) प्रशासन
92. एयर कमोडोर प्रशांत मुकुन्द विठालकर, वा मे (17855) उड़ान (पायलट)
93. एयर कमोडोर सविन्द्र पाल सिंह (18116) उड़ान (पायलट)
94. ग्रुप कैप्टन मैसूर अनन्तपदमनाभशर्मा श्रीधर (17027) प्रशासन / एयर ट्रैफिक
कंट्रोलर
95. ग्रुप कैप्टन नीरज श्रीवास्तव (17787) परिभारिकी
96. ग्रुप कैप्टन नृप कुमार मेहता (17886) प्रशासन
97. ग्रुप कैप्टन साधना एस नायर (18197) चिकित्सा
98. ग्रुप कैप्टन विजय कुमार गर्ग (18493) वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)

99. ग्रुप कैप्टन देवाराजन बालामुरली (18520) वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)
100. ग्रुप कैप्टन जितेन्द्र मिश्र (18575) उड़ान (पायलट)
101. ग्रुप कैप्टन बृज मोहन त्यागी (18795) उड़ान (पायलट)
102. ग्रुप कैप्टन पुनीत सुरिन्द्रनाथ सरीन (19073) वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)
103. ग्रुप कैप्टन शोवित जैन (19078) वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)
104. ग्रुप कैप्टन राजीव मित्तल (19109) वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रानिकी)
105. ग्रुप कैप्टन अच्युथन जयन्थन (19497) परिभारिकी
106. ग्रुप कैप्टन विक्रम राजशेखर (19714) वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)
107. ग्रुप कैप्टन सनील ओहरी (19731) वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रानिकी)
108. ग्रुप कैप्टन प्रदीप कुमार राऊत (20565) वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रानिकी)
109. ग्रुप कैप्टन इचेतिरा इयाप्पा कुट्टप्पा, वा मे (20758) उड़ान (पायलट)
110. ग्रुप कैप्टन गोरन्टला कासी जलंधर रेड्डी (20990) उड़ान (पायलट)
111. ग्रुप कैप्टन विक्रम गौड़ (21008) उड़ान (पायलट)
112. ग्रुप कैप्टन रामासमुद्र अनंतमूर्ती रंजन राम (21755) वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रानिकी)
113. ग्रुप कैप्टन अजय कुमार सिंह (21985) उड़ान (नेविगेटर)
114. विंग कमांडर चंद्रशेखर श्रीनिवास (20196) प्रशासन/एयर ट्रैफिक कंट्रोलर
115. विंग कमांडर उपदेश शर्मा (21653) लेखा
116. विंग कमांडर परमजीत सिंह (21929) प्रशासन / फायटर कंट्रोलर

सुरेश यादव

राष्ट्रपति के विशेष कार्यधिकारी

संख्या 11-प्रेज़/2013 – राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उनके असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए "सेना मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :-

1. आईसी-53687 डब्ल्यू कर्नल विक्रांत अविनाश देसाई,
पंजाब रेजीमेंट / 24वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स
2. आईसी- 54879 ए कर्नल दीपक सज्जनहार,
पहली बटालियन, द नागा रेजिमेन्ट
3. आईसी-55340 एच कर्नल ललित शर्मा,
शौर्य चक्र, तीसरी बटालियन, द ग्रेनेडियर्स
4. आईसी- 58485 वाई ले. कर्नल दीपक सिंह सामन्त,
कुमाँऊ रेजिमेन्ट / 13वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स
5. आईसी- 60642 वाई मेजर धीरेन्द्र यादव,
सेना विमानन कोर / 19वीं टोही तथा प्रेक्षण विमान
6. आईसी-60861 ए मेजर गौरव डोगरा,
राजपूत रेजीमेंट / 58वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स

7. आईसी-60879डब्ल्यू मेजर सुनिल डागर,
सेना विमानन कोर / 23वीं (स्वतंत्र) टोही तथा प्रेक्षण विमान
8. आईसी-61856एफ मेजर सोमबीर सिंह लाम्बा,
सेना सेवा कोर/ 34वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स
9. आईसी-62531ए मेजर सपम जेनेत,
सेना सेवा कोर/29वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स
10. आईसी-62588पी मेजर संदीप शर्मा,
13वीं बटालियन, द सिख लाईट इन्फैन्ट्री ग्रुप
11. आईसी-62680एन मेजर संदीप खवास,
तोपखाना रेजिमेन्ट / 33वीं बटालियन, द फील्ड रेजिमेन्ट
12. आईसी-62920ए मेजर अभिषेक कुकरेती,
इन्जीनियर कोर/34वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स
13. आईसी-63103एन मेजर सुहेल सिंह सलारिया,
13वीं बटालियन, द सिख रेजीमेन्ट
14. आईसी-63403पी मेजर भीमैयाह पी एस,
10 वीं बटालियन, द पैराच्यूट रेजिमेन्ट (विशेष बल)
15. आईसी-63811ए मेजर दारा सिंह चहल,
दूसरी बटालियन, द ग्रेनेडियर्स
16. आईसी-63876एन मेजर नवाजेश एन पटेल,
पैराच्यूट रेजिमेन्ट (विशेष बल)/ 21 वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स
17. आईसी-63939एल मेजर विनोद कुमार,
सेना सेवा कोर/ 21वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स
18. आईसी-64883डब्ल्यू मेजर राजीव कुमार,
पहली बटालियन, द मराठा लाइट इन्फैन्ट्री
19. आईसी-65610ए मेजर अजय कुमार,
सिख रेजिमेन्ट /27वीं बटालियन, द असम राइफल्स
20. आईसी-66883पी मेजर योगेश्वर सिंह,
तीसरी बटालियन, द पैराच्यूट रेजिमेन्ट (विशेष बल)
21. आईसी- 67625एफ मेजर संजीव सिंह,
मेकानाइज्ड इन्फैन्ट्री/ 27वीं बटालियन, द असम राइफल्स
22. आईसी-67745ए मेजर अश्विनी कुमार दिक्षित,
इन्जीनियर्स कोर/ 29वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स
23. आईसी-68162के मेजर आशीश श्रीवास्तवा,
18 वीं बटालियन, द सिख रेजिमेन्ट
24. आईसी- 69283एक्स मेजर सोनु के सिध्दार्थन,
तोपखाना रेजिमेन्ट/ 17वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स
25. आईसी-70460वाई मेजर अर्जुन कुमार बुटोला,
22वीं बटालियन, द मराठा लाइट इन्फैन्ट्री

26. आईसी-70643पी मेजर अमल सालि,
पहली बटालियन, द नागा रेजिमेन्ट
27. आईसी-72852एल मेजर प्रतीक मलिक,
कवचित कोर/ तीसरी बटालियन, द जम्मू एण्ड कश्मीर राइफल्स
28. आईसी-72889एम मेजर स्वागत शर्मा,
कवचित कोर/ 24 वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स
29. एसएस-40378पी मेजर सलीम खान
सिख रेजिमेन्ट/ छठी बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स
30. आईसी-71529के कैप्टन विश्वकर्मा सुधांशु जगन्नाथ,
10वीं बटालियन, द सिख लाईट इन्फैन्ट्री
31. आईसी-74999ए कैप्टन वी अरूल,
तीसरी बटालियन, द ग्रेनेडियर्स
32. एसएस-43019एम कैप्टन अयानांगु हाज़रा,
9वीं बटालियन, द मद्रास रेजिमेन्ट
33. आईसी-72254एन लेफ्टिनेंट अजय सिंह पठानिया,
सेना सेवा कोर/ 33वीं बटालियन, द फील्ड रेजिमेन्ट
34. आईसी-75156वाई लेफ्टिनेंट मोहित जाटयाण,
ई.एम.ई./ तीसरी जम्मू एण्ड कश्मीर राइफल्स
35. एसएस-44395एम लेफ्टिनेंट नीरव पठानीया,
सेना आयुध कोर/ दूसरी/तीसरी बटालियन, द गोरखा राइफल्स
36. एआर-355 असिसटेंट कमाण्डेंट राज किशोर,
33वीं बटालियन, द असम राइफल्स
37. जेसी-439956ए सुबेदार ज्ञानासेखर रेड्डी,
9वीं बटालियन, द मद्रास रेजिमेन्ट
38. 3995986पी हवलदार करम चन्द ठाकुर,
पैराच्यूट रेजिमेन्ट (विशेष बल)/ छठी बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स
39. 4087917के हवलदार रघुवीर चन्द,
गढ़वाल राइफल्स/1 उत्तराखण्ड (स्वतंत्र) कम्पनी, राष्ट्रीय कैडेट कोर
40. 4273971डब्ल्यू हवलदार अरविंद कुमार,
बिहार रेजिमेन्ट/ 24वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स
41. 14434471के हवलदार रजनिश कुमार,
तोपखाना रेजिमेन्ट/ 33वीं बटालियन, द फील्ड रेजिमेन्ट
42. 2689299एन लांस हवलदार हरविन्दर सिंह,
तीसरी बटालियन, द ग्रेनेडियर्स (मरणोपरांत)
43. जी/104947एफ लांस हवलदार एल कामिनी सिंह,
10वीं बटालियन, द असम राइफल्स
44. 2798125के लांस नायक पाटिल लक्ष्मन नामदेव,
पहली बटालियन, द मराठा लाईट इन्फैन्ट्री

45. 3404348एच लांस नायक कुलविंदर सिंह,
18वीं बटालियन, द सिख रेजिमेन्ट
46. 4479157एल लांस नायक दलजीत सिंह,
9वीं बटालियन, द सिख लाईट इन्फैन्ट्री
47. 13623707एफ लांस नायक श्रीकेश सुकुमारन,
9वीं बटालियन, द मद्रास रेजिमेन्ट
48. 13763846एच लांस नायक अजय कुमार थापा,
तीसरी बटालियन, द जम्मू एण्ड कश्मीर राइफल्स
49. 3406917के सिपाही चनन सिंह,
18 वीं बटालियन, द सिख रेजिमेन्ट
50. 4574805एन सिपाही संदीप,
महार रेजिमेन्ट/ 30 वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स (मरणोपरान्त)
51. 14704478एक्स सिपाही फ्रांसिस बोपेन जे हुमत्सो,
पहली बटालियन, द नागा रेजिमेन्ट
52. 4091577के राइफलमैन चन्दर सिंह,
गढ़वाल राइफल्स/ 36वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स (मरणोपरान्त)
53. 16016556डब्ल्यू राइफलमैन गिरधारी राम,
राजपूताना राइफल्स/43वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स
54. जी/5003953एच राइफलमैन सोरोखईबाम शांति कुमार,
33 वीं बटालियन, द असम राइफल्स
55. 2703367के ग्रेनेडियर रणजीत सिंह यादव,
22 वीं बटालियन, द ग्रेनेडियर्स
56. 14440737एफ गन्नर गोपाल,
तोपखाना रेजिमेन्ट/ छठी बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स

(सुरेश यादव)

राष्ट्रपति के विशेष कार्यधिकारी

संख्या 12 -प्रेज/2013- राष्ट्रपति, कमांडर श्रीवत्सा सेशाद्री एनएम (03717-वाई) को उनके असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए "नौसेना मेडल का बार " प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं।

(सुरेश यादव)

राष्ट्रपति के विशेष कार्यधिकारी

संख्या 13-प्रेज/2013 – राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उनके असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए "नौसेना मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :-

1. लेफ्टिनेंट कमांडर धीरेन्द्र बिष्ट (05858-एन)
2. लेफ्टिनेंट हरिशंकर (06133-एन)
3. मुकेश कुमार सीएचएमई (177091-एफ)

(सुरेश यादव)

राष्ट्रपति के विशेष कार्यधिकारी

संख्या 14-प्रेज़/2013 – राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को उनके असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए "वायु सेना मेडल/एयरफोर्स मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :-

1. विंग कमांडर गुरकिरत सिंह सोहाल (24181) उड़ान (पायलट)
2. विंग कमांडर चिकमंदय गिरीश दीपक (24487) उड़ान (पायलट)
3. फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ चोपड़ा (29487) उड़ान (पायलट)

(सुरेश यादव)

राष्ट्रपति के विशेष कार्यधिकारी

संख्या 15-प्रेज़/2013 – राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण कर्तव्यपरायणता के लिए सेना मेडल/आर्मी मेडल का बार" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :-

1. आईसी-35499एम मेजर जनरल मादिनानि रमेश बाबू,
सेना मेडल, इन्फैन्ट्री/मुख्यालय प्रति विद्रोहिता बल (डेल्टा)
2. आईसी-54082एफ कर्नल विक्रम सिंह गुलेरिया,
सेना मेडल, राजपूत रेजिमेन्ट/ 10वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स

(सुरेश यादव)

राष्ट्रपति के विशेष कार्यधिकारी

संख्या 16-प्रेज़/2013 – राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण कर्तव्यपरायणता के लिए "सेना मेडल/आर्मी मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :-

1. आईसी-31634एक्स मेजर जनरल रवीन्द्र सिंह पनवर,
विशिष्ट सेवा मेडल, कोर ऑफ सिगनल्स / मुख्यालय उत्तरी कमान
2. आईसी-35109वाई मेजर जनरल राजीव वसंत कानिटकर,
कवचित कोर/ मुख्यालय, 23वीं इन्फैन्ट्री डिविजन
3. आईसी-35110एन मेजर जनरल वेणुगोपाल मेनन,
विशिष्ट सेवा मेडल, इन्जीनियर्स कोर/ मुख्यालय उत्तरी कमान
4. आईसी-41089एम ब्रिगेडियर रमेश कुमार रैना,
गढ़वाल राइफल्स/ मुख्यालय 21वीं सब एरिया
5. आईसी-41136वाई ब्रिगेडियर बलराज मेहता,
बिहार रेजिमेन्ट/ मुख्यालय 80वीं इन्फैन्ट्री ब्रिगेड
6. आईसी-41522एल ब्रिगेडियर अनन्त भूयाँ,
कुमाँऊ रेजिमेन्ट/ मुख्यालय 77वीं पर्वतीय ब्रिगेड
7. आईसी-41668वाई ब्रिगेडियर अशीम कोहली,
तोपखाना रेजिमेन्ट/ मुख्यालय 44वीं पर्वतीय ब्रिगेड
8. आईसी-41906ए ब्रिगेडियर संजय राय,
बिहार रेजिमेन्ट/ मुख्यालय 167वीं इन्फैन्ट्री ब्रिगेड

9. आईसी-42004एक्स ब्रिगेडियर राणा प्रताप कलिता,
विशिष्ट सेवा मेडल, कुमाँऊ रेजिमेन्ट/ मुख्यालय 71वीं पर्वतीय ब्रिगेड
10. आईसी-42270डब्ल्यू ब्रिगेडियर कमल कुमार रेप्सवाल,
इन्जीनियर्स कोर/ मुख्यालय सी.ई. अंडमान एण्ड निकोबार जोन
11. आईसी-42538एच ब्रिगेडियर अतुल्या सोलंकी,
11वीं बटालियन, द गोरखा राइफल्स/मुख्यालय 9 (स्वतंत्र) पर्वतीय ब्रिगेड ग्रुप
12. आईसी-45006 ब्रिगेडियर आशुतोष सिरोतिया,
मद्रास रेजिमेन्ट/ मुख्यालय 104वीं इन्फैन्ट्री ब्रिगेड
13. आईसी-45297वाई ब्रिगेडियर शम्मी राज,
तोपखाना रेजिमेन्ट/ मुख्यालय 121वीं (स्वतंत्र) इन्फैन्ट्री ब्रिगेड ग्रुप
14. आईसी-50610एच कर्नल अतुल कुमार,
तोपखाना रेजिमेन्ट/ 30वीं बटालियन, द असम राइफल्स
15. आईसी-52370पी कर्नल राजीव नागयाल
तीसरी बटालियन, द गोरखा राइफल्स/ 35वीं बटालियन, द असम राइफल्स
16. आईसी-52483एक्स कर्नल किशन मोहन अग्रवाल,
15वीं इन्जीनियर रेजिमेन्ट
17. आईसी-52513के कर्नल विक्रम सिंह पठानिया,
तीसरी बटालियन, द जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स
18. आईसी-52757एक्स कर्नल सुधांशु शर्मा,
पहली/तीसरी बटालियन, द गोरखा राइफल्स
19. आईसी-53133एक्स कर्नल अमरेश गुन्जन,
10वीं बटालियन, द गढ़वाल राइफल्स
20. आईसी-53209एम कर्नल नरेन्द्र सिंह,
दूसरी बटालियन, द राजपूताना राइफल्स
21. आईसी-53723डब्ल्यू कर्नल रमन शर्मा,
राजपूताना राइफल्स/43वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स
22. आईसी-53832एच कर्नल मनीष शर्मा,
8वीं बटालियन, द राजपूताना राइफल्स
23. आईसी-53934वाई कर्नल यशदीप सांगवान,
19वीं बटालियन, द मद्रास रेजिमेन्ट
24. आईसी-54048एफ कर्नल नरेश कुमार भगासरा,
8वीं बटालियन, द डोगरा रेजिमेन्ट
25. आईसी-54430एक्स कर्नल राज कुमार,
15वीं बटालियन, द डोगरा रेजिमेन्ट
26. आईसी-54512ए कर्नल बिक्रम सैनी,
पंजाब रेजिमेन्ट/22 वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स
27. आईसी-55127एच कर्नल अमरदीप सिंह बाली,
10 वीं बटालियन, द सिख लाईट इन्फैन्ट्री

28. आईसी-55141पी कर्नल संजीव कुमार,
20वीं बटालियन, द पंजाब रेजिमेन्ट
29. आईसी-55143ए कर्नल परम जीत सिंह,
जाट रेजिमेन्ट/ 34वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स
30. आईसी-50975एक्स लेफ्टिनेंट कर्नल राम निवास,
ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स/ आयुध निर्माणी, चंदा
31. आईसी-55461के लेफ्टिनेंट कर्नल धनंजय एम भोसले,
202 सेना विमानन, स्क्वाड्रन (यूटिलिटी हेलिकॉप्टर)
32. आईसी-55473वाई लेफ्टिनेंट कर्नल राजेश कुमार शुक्ला,
सिख लाईट इन्फैन्ट्री/ दूसरी बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स
33. आईसी-61019पी मेजर अतुल कुमार शर्मा,
पहली/11वीं बटालियन, द गोरखा राइफल्स
34. आईसी-62147वाई मेजर वासुदेवन,
डोगरा रेजिमेन्ट/डोगरा स्काउट्स
35. आईसी-66846एफ मेजर प्रदीप सिंह राठौड़,
सेना विमानन कोर/ 38वीं (स्वतंत्र) टोही तथा प्रेक्षण विमान
36. 15670318वाई नायक भास्कर देऊरी,
कोर ऑफ सिगनल्स / 19वीं वायरलेस एक्सपेरीमेंटल यूनिट
37. 4080082एक्स लांस नायक अरुण कुमार,
13वीं बटालियन, द गढ़वाल राइफल्स

(सुरेश यादव)

राष्ट्रपति के विशेष कार्यधिकारी

संख्या 17-प्रेज़/2013 – राष्ट्रपति, कमोडोर राकेश कुमार मेहता, एनएम(02577-एफ) को उनकी असाधारण कर्तव्यपरायणता के लिए "नौ सेना मेडल का बार" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं।

(सुरेश यादव)

राष्ट्रपति के विशेष कार्यधिकारी

संख्या 18-प्रेज़/2013 – राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को उनकी असाधारण कर्तव्यपरायणता के लिए "नौ सेना मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :-

1. सर्जन रियर एडमिरल पवन सरीन (75219-ए)
2. कमोडोर अजय कुमार मन्नूर राघवन, वीएसएम, (02025-ए)
3. कमोडोर अतुल कुमार कोकणठाणकर (02793-वाई)
4. कमोडोर रवि आहलूवालिया (03023-डब्ल्यू)
5. सर्जन कमोडोर रवि कालरा, वीएसएम, (75281-टी)

6. कैप्टन पी अशोकन (02722-के)
7. कैप्टन अजय कोच्छर (03326-एच)

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्यधिकारी

संख्या 19-प्रेज़/2013 – राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण कर्तव्यपरायणता के लिए "वायु सेना मेडल/ एयर फोर्स मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :-

1. एयर कम्डोर मूलपूरु वेंकट रामा राव् (18115) उड़ान (पायलट)
2. एयर कम्डोर बकुल वैकुंठराय उपाध्याय (18281) उड़ान (पायलट)
3. ग्रुप कैप्टन धनंजय वसंत खोत (19516) उड़ान (पायलट)
4. ग्रुप कैप्टन मिलिन्द कुमार (20479) उड़ान (पायलट)
5. ग्रुप कैप्टन नीरज कुमार (21257) उड़ान (पायलट)
6. ग्रुप कैप्टन संजीव वशिष्ठ (21818) उड़ान (पायलट)
7. ग्रुप कैप्टन रण सिंह (22110) उड़ान (पायलट)
8. ग्रुप कैप्टन सुचारू राय (22119) उड़ान (पायलट)
9. ग्रुप कैप्टन हिरेन्द्र आसुदानी (22137) उड़ान (पायलट)
10. विंग कमांडर सम्पूर्ण सिंह गहलोत (21503) उड़ान (पायलट)
11. विंग कमांडर आशीष श्रीवास्तव (22523) उड़ान (पायलट)
12. विंग कमांडर सुन्दरमणी कृष्णन (22933) उड़ान (पायलट)
13. विंग कमांडर सागर मधुकर परांजपे (22945) उड़ान (पायलट)
14. विंग कमांडर कुन्तल व्रत बन्धोपाध्याय (22952) उड़ान (पायलट)

(सुरेश यादव)
राष्ट्रपति के विशेष कार्यधिकारी

संख्या 20-प्रेज़/2013 - राष्ट्रपति, "सेना प्रमुखों" से "रक्षा मंत्री" द्वारा प्राप्त निम्नलिखित ऑफिसर्स/कार्मिकों के नामों को "मेशन इन डिस्पैचेज" के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं :-

ऑपरेशन रक्षक

1. आईसी-57161एफ ले. कर्नल गुरदीप सिंह, 666 सेना विमानन स्क्वाड्रन(आर एंड ओ)
2. आईसी-59307एच मेजर संदीप सिंह औलख, 666 सेना विमानन स्क्वाड्रन(आर एंड ओ)
3. आईसी-66181डब्ल्यू मेजर राकेश यादव, एसएम. पैरा, 6 राष्ट्रीय राइफल्स
4. जेसी-379695एल नायब सूबेदार नरेश कुमार, सिगनल्स, 15 सीईएसआर
5. जेसी-404690ए नायक सूबेदार रमेश कुमार, गार्ड्स, 21 राष्ट्रीय राइफल्स
6. 15716416ए सिगनलमैन वैशनो वीर सिंह, सिगनल्स, 15 सीईएसआर

ऑपरेशन राइनो

1. आईसी-62350पी मेजर नवदीप कुमार मल्होत्रा, 19 मद्रास
2. आईसी-72710एन कैप्टन दिनेश कुमार यादव, ईएमई, 9 सिख लाईट इन्फैन्ट्री
3. एसएस-42732एक्स कैप्टन अरुण जॉर्ज अब्राहम, 8 गढ़वाल राइफल्स
4. 4082382एक्स लांस नायक रणवीर सिंह गुसाई, 8 गढ़वाल राइफल्स

सुरेश यादव

राष्ट्रपति के विशेष कार्यधिकारी

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली-110115, दिनांक 18 फरवरी 2013

संकल्प

विषय :-मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए क्षेत्रक नवाचार परिषद् का गठन।

सं. 17-2/2010 पी.एन.1--उच्चतर और स्कूल शिक्षा दोनों क्षेत्रों में नवाचार की रूपरेखा तैयार करने के लिए भारत सरकार ने माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक क्षेत्रक नवाचार परिषद् गठित करने का निर्णय लिया है। परिषद् की संरचना नीचे दिये अनुसार होगी :-

- | | |
|--|------------|
| 1. माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री | अध्यक्ष |
| 2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री | सदस्य |
| 3. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग | पदेन-सदस्य |
| 4. सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग | पदेन-सदस्य |
| 5. प्रो. एम. आनंदकृष्णन, अध्यक्ष शासी बोर्ड, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर | सदस्य |
| 6. प्रो. गौतम बरुआ, निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी | सदस्य |

- | | |
|--|-------|
| 7. प्रो. आर. के. शिवगांवकर, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली | सदस्य |
| 8. प्रो. दिनेश सिंह, कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय | सदस्य |
| 9. श्री मोहम्मद मियां, कुलपति, एमएएनयूयू, हैदराबाद | सदस्य |
| 10. प्रो. एस. के. थोराट, अध्यक्ष, आईसीएसएसआर | सदस्य |
| 11. डॉ. प्रहलाद, कुलपति, डीआईएटी, पुणे | सदस्य |
| 12. श्री टी. वी. मोहनदास पई, अध्यक्ष, मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज प्राईवेट लि. बेंगलूरु | सदस्य |
| 13. अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का प्रतिनिधि | सदस्य |
| 14. डॉ. ए. के. शर्मा, पूर्व-निदेशक, एनसीईआरटी | सदस्य |
| 15. श्री विनीत जोशी, अध्यक्ष, सीबीएसई | सदस्य |
| 16. श्री अमित कौशिक, प्रबंध निदेशक, एजुकेशन कंपोजिट स्कूल्स, नई दिल्ली | सदस्य |
| 17. सुश्री आभा एडम्स, पूर्व-प्रधानाचार्या, श्री राम स्कूल/ श्री राम फाउंडेशन | सदस्य |
| 18. श्री हृदयकांत दीवान, विद्या भवन, उदयपुर (शिक्षा-शास्त्र और पाठ्यचर्या) | सदस्य |

19. श्री माधव चव्हाण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रथम, सदस्य
मुंबई (पठनकार्यक्रम और प्रशिक्षण)

दिनांक 14 मार्च 2013

संकल्प

20. डॉ. पदमा सारंगपाणि, टीआईएसएस, मुंबई सदस्य

21. श्री गुरुमूर्ति काशीनाथ, निदेशक, आईटी फॉर चेंज, सदस्य
बेंगलूरु

22. श्री शैलेश शिराली, हैड ऑफ कम्युनिटी मैथ्स सदस्य
सेंटर, ऋषि वैली, चित्तूर, आंध्रप्रदेश

23. सुश्री आलोक गुहा, पूर्व अध्यक्ष, नेशनल ट्रस्ट, सदस्य
कोलकाता

24. अपर सचिव (प्रौद्योगिकी समर्थित अधिगम), स्थायी
उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन आमंत्रिती
विकास मंत्रालय

25. अपर सचिव (तकनीकी), उच्चतर शिक्षा विभाग, स्थायी
मानव संसाधन विकास मंत्रालय आमंत्रिती

26. अपर सचिव, (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग), स्थायी
मानव संसाधन विकास मंत्रालय आमंत्रिती

27. अपर सचिव (ईई-1) स्कूल शिक्षा और साक्षरता स्थायी
विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय आमंत्रिती

2. क्षेत्रक नवाचार परिषद् के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :

- शिक्षा में नवाचार के अवसरों की रूपरेखा तैयार करना।
- शिक्षा के क्षेत्र में नवीन मॉडलों के लिए युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित और पुरस्कृत करने की संभावनाओं का पता लगाना।
- शिक्षा के क्षेत्र में दशक के नव प्रवर्तन के लिए रूपरेखा तैयार करना।

3. क्षेत्रक नवाचार परिषद् अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से यथा आवश्यक सदस्यों के रूप में विशेषज्ञों को सहयोजित कर सकती है और सब-ग्रुप बना सकती है।

4. गैर-सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का भुगतान भारत सरकार के नियमों के अनुसार किया जायेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए और भारत के राजपत्र की एक मुद्रित प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास भेजी जाए।

अमित खरे
संयुक्त सचिव

सं. 27-10/2012-यूयू--ऑरोविले प्रतिष्ठान अधिनियम, 1988 के अध्याय-III की धारा 21 की उपधारा (1) के अनुसार, भारत सरकार ऑरोविले अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् का पुनर्गठन निम्न प्रकार से करती है :--

1. डॉ. गोपालकृष्ण गांधी,
मकान सं. 7, द्वितीय सीवार्ड रोड,
वाल्मीकि नगर, चेन्नई-600041

2. सर मार्क तुली,
1, निजामुद्दीन ईस्ट,
नई दिल्ली-110013

3. डॉ. विशाखा एन. देसाई,
अध्यक्ष, एशिया सोसायटी,
पार्क एवेन्यू,
न्यूयार्क, 10021, यूएसए

4. श्री जुलियन लाईस,
ऑरोविले अंतर्राष्ट्रीय संघ,
डाक.-676, वुडस्टॉक,
न्यूयार्क-12498, यूएसए

2. परिषद् के अध्यक्ष का चुनाव परिषद् के सदस्यों में से ही उन्हीं सदस्यों द्वारा किया जाएगा।

3. सदस्यों का कार्यकाल इस संकल्प की तिथि से चार वर्षों की अवधि का होगा। ये सदस्य अवैतनिक क्षमता में कार्य करेंगे।

4. ऑरोविले प्रतिष्ठान के सचिव ऑरोविले अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के पदेन सचिव होंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति (i) सभी व्यक्तियों (ii) सचिव, ऑरोविले प्रतिष्ठान, ऑरोविले-605101 (तमिलनाडु) और (iii) सचिव, तमिलनाडु सरकार को भेजी जाए।

आदेश दिया जाता है कि आम सूचनार्थ इस संकल्प को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अमित खरे
संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January 2013

No. 2-Pres/2013 – The President is pleased to approve the award of the “**Kirti Chakra**” to the under mentioned persons for the acts of conspicuous gallantry:-

1. **IC-67270F MAJOR ANUP JOSEPH MANJALI, BIHAR REGIMENT / 24TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES**

[Effective date of the award: 01 October 2012]

On 01 October 2012 at 0330 hours, while leading his company column during the Battalion Level Operation in Jammu & Kashmir, Major Anup Joseph Manjali established close cordon around a Dhok in which five hardcore foreign terrorist leaders were hiding from the heavily forested side. At first light, the officer displaying raw courage crawled upto the entrance of the Dhok and lobbed a hand grenade to flush out the terrorists resulting in elimination of one terrorist on the spot.

Other terrorists ran out towards the forest firing indiscriminately. The officer sensing danger to his troops displayed utmost presence of mind, engaged the fleeing terrorists in a close quarter battle. After closing in on them, he shot dead two more dreaded terrorists from a distance of approximately twenty meters in a most daring act.

Major Anup Joseph Manjali displayed conspicuous gallantry and raw courage in eliminating three terrorists.

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 3-Pres/2013 - The President is pleased to approve the award of the “**Shaurya Chakra**” to the undermentioned persons for the acts of gallantry:-

1. **3398295W HAVILDAR VIR SINGH, 13TH BATTALION THE SIKH REGIMENT**

[Effective date of the award: 19 February 2012]

On 19 February 2012, Havildar Vir Singh was the commander of the operation column in Operation Medhipara. Based on inputs regarding movement of terrorists, Multiple Mobile Check Posts were placed on all routes of ingress

from Meghalaya to Assam. At approximately 2300 hours two individuals on motorcycle approached mobile check post situated in Goalpara district of Assam, and were asked to stop. On being challenged they started firing on own party and tried to flee. Havildar Vir Singh immediately challenged the terrorists to halt and warned them of retaliatory fire. Instead of stopping, the terrorist opened indiscriminate fire and attempted to flee taking cover of darkness.

In a swift reaction Havildar Vir Singh started chasing the fleeing terrorists towards the undulating ground ahead. Despite coming under heavy fire, the Non Commissioned Officer remained steadfast in his pursuit and neutralized the terrorists in close combat. The neutralized terrorists were identified as Deputy Area Commander/Financial Secretary of the terrorists' group active in the region.

Havildar Vir Singh displayed conspicuous gallantry, exceptional leadership and exemplary combat proficiency in fighting the terrorists.

2. **IC-65554M MAJOR SANDEEP KUMAR, 13TH BATTALION THE SIKH REGIMENT**

[Effective date of the award: 02 April 2012]

Major Sandeep Kumar was the commander of the operation column in Operation Kashibari on 01-02 April 2012 which led to the elimination of two hardcore terrorists of a terrorist group.

Based on inputs regarding presence of some terrorists in general area of Goalpara district of Assam, a search operation under the command of Major Sandeep Kumar was launched. At approximately 0100 hours on 02 April 2012, suspicious movement was noticed inside an abandoned building on the outskirts of the village. Major Sandeep Kumar displaying exemplary leadership and tactical acumen quickly deployed his troops to establish a cordon and ensured that all escape routes were blocked. On being challenged the holed up terrorists started firing on own troops from inside the building.

Major Sandeep Kumar displaying raw courage crawled towards the building and latched the door of building from outside. The terrorists were again warned to surrender, but they retaliated with fire. In a swift reaction the officer closed in with the holed up terrorists and displaying excellent field craft ordered his buddy to fire in the left corner of the building to pin down the terrorists. Unmindful of personal safety despite coming under fire, the officer neutralised the two terrorists at close quarters.

Major Sandeep Kumar displayed conspicuous gallantry, exceptional leadership, tactical acumen and combat proficiency in fighting the terrorists.

3. **IC-72070P CAPTAIN DINESH KUMAR, 9TH BATTALION THE MADRAS REGIMENT**

[Effective date of the award: 23 June 2012]

Captain Dinesh Kumar through the network that he had developed at Langting, acquired pinpoint intelligence of a composite group of six top ranking heavily armed insurgents of a terrorists group in a village of Silchar district in Assam.

During the operation launched on 23 June 2012 at 0410 hours to flush out the insurgents, Captain Dinesh Kumar identifying a Jhoom Hut where the hardcore insurgents were holed up, stealthily moved forward to neutralize the insurgent on sentry duty. Detecting the officer's movement, the insurgent fired at him from close quarters. Captain Dinesh, showing utter disregard to his personal safety, single-handedly charged at the insurgent and shot him dead. Another insurgent, by this time, had picked up his weapon and was fleeing towards the jungle. The officer, again at great personal risk single-handedly chased the armed fleeing insurgent and shot him dead.

Captain Dinesh Kumar displayed conspicuous bravery, raw courage and outstanding leadership qualities in eliminating two hardcore insurgents.

4. **13698975M NAIK KRISHAN KUMAR, BRIGADE OF THE GUARDS/13TH SIKH LIGHT INFANTRY BATTALION GROUP (POSTHUMOUS)**

[Effective date of the award: 05 July 2012]

Naik Krishan Kumar served with 13th Sikh Light Infantry Battalion Group, INDBATT-2/XXIII (MONUSCO) in Democratic Republic of Congo from 27 February to 05 July 2012.

Naik Krishan Kumar was part of the QRF inducted on 05 July 2012 at SCD Bunagana, in Democratic Republic of Congo to contain and handle the intensifying fire fight which was threatening the life and property of civilians in the area. At 1800h, the location came under heavy effective fire from the rebels and an intense fire fight ensued. Undeterred, the NCO held his ground and continued to engage the rebels thereby dissuading them from reaching the population centre. The prompt assessment of the situation, adherence to laid down Rules of Engagement and tenacity of the NCO not only delayed the rebels advance but also encouraged his comrades to hold their ground. At 2020h Naik Krishan Kumar was hit by a bullet and in spite of being grievously injured the NCO zealously continued to hold his position till he breathed his last.

Naik Krishan Kumar displayed unflinching bravery, stellar devotion to duty, unabating tenacity and absolute adherence and laid down his life in fighting the rebels.

5. **JC-559638M SUBEDAR PRADEEP BECK, BIHAR REGIMENT / 24TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES**

[Effective date of the award: 09 July 2012]

On 09 July 2012, a unit source informed about presence of a hard core terrorist in a village of Ganderbal district of Jammu & Kashmir. Subedar Pradeep Beck immediately led a patrol and deployed a cordon around the suspected house.

At first light, the terrorist came out of the house. On being challenged, he started running back to the house when challenged and opened indiscriminate fire onto the cordon party. The JCO sensing danger to his party, exhibited quick presence of mind and chased the terrorist up to fifty metres when he tried to enter the house through its window. He swiftly brought down accurate fire on the terrorist killing him instantly. Displaying utmost professional competence, tactical acumen and utter disregard to personal safety, Subedar Pradeep Beck led from the front in the face of hostile fire which resulted in elimination of a dreaded terrorist commander who was active in the area for the past decade.

Subedar Pradeep Beck displayed inspirational leadership and conspicuous bravery in fighting the terrorists .

6. **IC-65672A MAJOR MANISH PUNJ, RAJPUT REGIMENT / 10TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES**

[Effective date of the award: 05 August 2012]

On 05 August 2012, based on specific intelligence about presence of three hardcore terrorists in the far flung area of Kishtwar district in Jammu & Kashmir, a well planned and coordinated operation was executed by Major Manish Punj alongwith Special Task Force Doda with complete stealth and secrecy.

Major Manish's team closed in and established a close cordon of the terrorist hideout completely undetected. At 0900 hours, the terrorists were taken by complete surprise on being challenged and opened indiscriminate fire on own troops. In the ensuing gun fight one of the terrorists was shot dead by Major Manish while he tried to jump the cordon. Later the officer closed in on the second terrorist who was carrying out intermittent fire on own troops and eliminated him at a close range. Under his leadership, the team later apprehended the third terrorist and completed the mission in a most professional manner.

Major Manish Punj displayed outstanding leadership qualities, ingenuity, indomitable courage in the face of hostile fire.

7. **IC-68806Y CAPTAIN A RAHUL RAMESH, CORPS OF ENGINEERS**
/ 72ND ROAD CONSTRUCTION COMPANY (POSTHUMOUS)

[Effective date of the award: 14 August 2012]

Captain A Rahul Ramesh of 72 Road Construction Company was detailed to execute daunting task of road clearance which include clearance of slides, formation cutting to create diversions, bridging of gaps that had arisen consequent to cloud burst in general area of Uttarkashi (Uttarakhand) on 3 & 4 Aug 2012.

Capt A Rahul Ramesh without caring for his personal safety and comfort successfully cleared 14 Nos of heavy slides on Dharasu-Gangotri Road near Line of Actual Control (LAC) in inclement weather and extremely rough terrain in 09 days before volunteering to construct a 110 feet Triple Single Bailey Bridge at Sawarigad on Dharasu-Gangotri road on 14 Aug 2012. At around 0700 hrs Capt A Rahul Ramesh being the Bridge Party Commander set out to launch a 110 feet Triple Single Bailey Bridge. The bridge was successfully assembled. At 1430 hours the hill side of home bank suddenly collapsed. When some portion of the bridge fell down, Capt A Rahul Ramesh pushed the driver who was working on the rollers to safety and went alone with an OP pin, to jam the rollers so as to prevent the bridge from sliding into the Nallah and directed other persons to move to safe place. However, due to recurrence of slide in a short while the bridge was hit by a big boulder and the bridge got off the roller and slid into the gap. Capt A Rahul Ramesh got trapped under one of the transoms of the bridge. As such the officer laid down his life to save life of others.

Capt A Rahul Ramesh displayed indomitable courage, exceptional devotion to duty, camaraderie and laid down his life to save the life of others.

8. **2486356P NAIK RAJESHVER SINGH, 16TH BATTALION THE**
PUNJAB REGIMENT (POSTHUMOUS)

[Effective date of the award: 04 September 2012]

Naik Rajeshver Singh was deployed at Abdul Hut Post on the Line of Control. On 04 September 2012 at 1640 hours, the Post came under heavy automatic fire by enemy from Ratwaji Nar of Kupwara district in Jammu and Kashmir. During initial volley of enemy fire, one person was wounded. Naik Rajeshver displaying raw courage rushed to his aid and observed that the intruders are charging from thick foliage towards the Post. He quickly changed his position

and charged towards the leading terrorist who had closed on to the post. The ensuing fire fight resulted in killing of one terrorist. In the process he sustained a burst of fire. Despite injury he continued fighting, thereby injuring a second terrorist and laid down his life in the ensuing fire fight. His indomitable spirit and exceptional bravery forced enemy to abandon their assault and successfully repulsed the threat to the Post.

Naik Rajeshver Singh displayed indomitable spirit and exceptional bravery and laid down his life in the service of the Nation in fighting with the terrorists.

9. **2486445N NAIK ANIL KUMAR, 16TH BATTALION THE PUNJAB REGIMENT (POSTHUMOUS)**

[Effective date of the award: 04 September 2012]

Naik Anil Kumar was deployed at Abdul Hut Post on the line of control. On 04 September 2012, at 1640 hours, the post came under heavy automatic fire by enemy from Ratwaji Nar of Kupwara district in Jammu and Kashmir. During initial volley of enemy fire, one person sustained injury. Naik Anil Kumar manning Medium Machine Gun immediately retaliated the fire. Displaying immense wits, undaunted courage and assessing the enemy close to the post, he promptly lifted and brought the Medium Machine Gun out from the bunker and effectively engaged the remaining terrorists, thereby causing casualty to one terrorist and beating back the others. In ensuing fire fight, he also sustained a burst of fire. Despite injuries, he continued to provide covering fire for remainder persons to react and engage the enemy. Later, he succumbed to his injuries on 25 Sep 2012.

Naik Anil Kumar displayed great courage, initiative and exceptional bravery in fighting the terrorists.

10. **LIEUTENANT COMMANDER INDERJEET SINGH (05871-T)**

[Effective date of the award: 11 September 2012]

At 0600 hour on 11 September 2012, Lieutenant Commander Inderjeet Singh the team leader of the Headquarters Western Naval Emergency Fire Response Team, boarded MV Amsterdam Bridge to combat a major fire onboard. A powerful explosion below decks had resulted in a spontaneous major fire causing proliferation of poisonous gases within the compartments of the Motor Vessel. Three additional containing highly inflammable liquid, above the compartment under fire, created a potential for an even severe explosion and maritime catastrophe. Leading his team in such hazardous conditions, which were further aggravated by rough seas and inclement weather, the officer exhibited exceptional courage of a high order. The officer restlessly applied himself to

accomplish his mission. Not being successful initially in locating the seat of fire, another attempt was made through a different approach, where he had to move more than 200 feet in darkness and under equally dangerous conditions. This effort finally resulted in localising the seat of fire which ensured judicious and concentrated utilisation of limited fire fighting effort onboard.

Lieutenant Commander Inderjeet Singh thus displayed gallantry and inspires leadership in saving the life of 24 crew members of MV Amsterdam Bridge and also prevented a major marine/environmental catastrophe off the Mumbai coast.

11. **IC-74882F LIEUTENANT MANISH SINGH, 9TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)**

[Effective date of the award: 25 September 2012]

On 25 September 2012, Lieutenant Manish Singh's squad was tasked to track escaping terrorists through terraced maize fields at general area of Kupwara district in Jammu and Kashmir. During the search, a terrorist suddenly opened indiscriminate fire injuring Lieutenant Manish Singh and pinning down his squad. Despite injuries, he crawled forward and kept the terrorist pinned down. During the encounter, the officer displayed leadership of the highest order in refusing to be evacuated and notwithstanding his grievous injuries and blood loss, held on to his position. Finally as the terrorist charged upon him, he shot him dead at near point blank range. His courageous action ensured the safety of his men and ruled out collateral damage to civilian houses.

Lieutenant Manish Singh displayed courage of exemplary order, conspicuous gallantry and outstanding leadership in fighting the terrorists.

(Sureśh Yadav)
OSD to the President

No. 4—Pres/2013 – The President is pleased to approve the award of the “**Param Vishisht Seva Medal**” to the undermentioned personnel for distinguished service of the most exceptional order:-

1. IC-25839W LIEUTENANT GENERAL BALJEET SINGH, VISHISHT SEVA MEDAL, REGIMENT OF ARTILLERY (**RETIRED**)
2. IC-27265N LIEUTENANT GENERAL BALAKRISHNAN VENUGOPAL NAIR, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, REGIMENT OF ARTILLERY / DEFENCE SERVICES STAFF COLLEGE, WELLINGTON

3. IC-27290M LIEUTENANT GENERAL RAMESH HALGALI,
ATI VISHISHT SEVA MEDAL, SENA MEDAL, INFANTRY
4. IC-27701A LIEUTENANT GENERAL DALBIR SINGH SIDHU,
ATI VISHISHT SEVA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL
ARMOURED CORPS **(RETIRED)**
5. IC-27767W LIEUTENANT GENERAL PRADEEP BHALLA,
ATI VISHISHT SEVA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL, ARMY
ORDNANCE CORPS **(RETIRED)**
6. IC-27782L LIEUTENANT GENERAL PANEMANGALORE,
GOPALAKRISHNA KAMATH, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, YUDH
SEVA MEDAL, SENA MEDAL, INFANTRY / ARMY WAR COLLEGE
7. IC-27972X LIEUTENANT GENERAL GYAN BHUSHAN,
UTTAM YUDH SEVA MEDAL, ATI VISHISHT SEVA MEDAL,
VISHISHT SEVA MEDAL, INFANTRY / HEADQUARTERS SOUTH
WESTERN COMMAND
8. IC-27979F LIEUTENANT GENERAL JATINDER SINGH BAJWA,
UTTAM YUDH SEVA MEDAL, SENA MEDAL, INFANTRY
9. IC-27990A LIEUTENANT GENERAL MUNISH SIBAL,
ATI VISHISHT SEVA MEDAL AND BAR, INFANTRY
10. IC-27994W LIEUTENANT GENERAL PALVINDER SINGH BHALLA,
ATI VISHISHT SEVA MEDAL, ARMOURED CORPS/
HEADQUARTERS NATIONAL CADET CORPS
11. IC-30016A LIEUTENANT GENERAL ANIL CHANDRA CHAIT,
ATI VISHISHT SEVA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL
ARMOURED CORPS / HEADQUARTERS CENTRAL COMMAND
12. IC-30068W LIEUTENANT GENERAL SURENDRA PRATAP
TANWAR, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, REGIMENT OF
ARTILLERY **(RETIRED)**
13. IC-30085W LIEUTENANT GENERAL JAG DARSHAN SINGH
RAWAT, SENA MEDAL, INTELLIGENCE CORPS / MILITARY
INTELLIGENCE TRAINING SCHOOL AND DEPOT
14. IC-30118W LIEUTENANT GENERAL ANJAN MUKHERJEE,
ATI VISHISHT SEVA MEDAL, REGIMENT OF ARTILLERY

15. IC-30353P LIEUTENANT GENERAL SYED ATA HASNAIN, UTTAM YUDH SEVA MEDAL, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, SENA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL AND BAR INFANTRY
16. IC-30516X LIEUTENANT GENERAL KULDIP SINGH, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, ARMY AIR DEFENCE
17. IC-30687K LIEUTENANT GENERAL SANJIV LANGER, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, ARMOURED CORPS
18. IC-30722F LIEUTENANT GENERAL VIJAI SHARMA, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, CORPS OF ENGINEERS
19. MR-03471Y LIEUTENANT GENERAL GAUTAM RAVINDRANATH, SENA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL, PRINCIPAL HONORARY SURGEON, ARMY MEDICAL CORPS
20. VICE ADMIRAL KANNAN BHAGAVATHESWARAN, AVSM, VSM, (50431-R) **(RETIRED)**
21. VICE ADMIRAL ANIL KUMAR CHOPRA, AVSM (01627-Y)
22. VICE ADMIRAL SATISH SONI, AVSM, NM, (01683-Z)
23. AIR MARSHAL ANIL CHOPRA, AVSM, VM, VSM (13368) FLYING (PILOT) **(RETIRED)**
24. AIR MARSHAL SIMHAKUTTY VARTHAMAN, AVSM, VM, VSM, (13606) FLYING (PILOT) **(RETIRED)**
25. AIR MARSHAL SATISH PAL SINGH, AVSM, VM (13770) FLYING (PILOT) **(RETIRED)**
26. AIR MARSHAL ARUP RAHA, AVSM, VM (13910) FLYING (PILOT)
27. AIR MARSHAL RAJINDER SINGH, AVSM, VM (13980) FLYING (PILOT)
28. AIR MARSHAL JAGDISH CHANDRA, AVSM, VSM, (14613) AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 5-Pres/2013 – The President is pleased to approve the award of the **“Uttam Yuddh Seva Medal”** to the undermentioned personnel for the distinguished service of an exceptional order during hostilities:

1. IC-30351K LIEUTENANT GENERAL DALBIR SINGH,
ATI VISHISHT SEVA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL
INFANTRY / HEADQUARTERS EASTERN COMMAND
2. IC-36269L LIEUTENANT GENERAL ANIL SINGH NANDAL,
ATI VISHISHT SEVA MEDAL, SENA MEDAL
INFANTRY / HEADQUARTERS 16TH CORPS
3. IC-31052X LIEUTENANT GENERAL SHAKTI GURUNG,
ATI VISHISHT SEVA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL
INFANTRY / HEADQUARTERS 4TH CORPS

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 6-Pres/2013 – The President is pleased to approve the award of the **“Bar to Ati Vishisht Seva Medal”** to the undermentioned personnel for distinguished service of an exceptional order:-

1. IC-27325X LIEUTENANT GENERAL RAJESH KOCHHAR,
ATI VISHISHT SEVA MEDAL, SENA MEDAL, VISHISHT SEVA
MEDAL, CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL
ENGINEERS (**RETIRED**)
2. IC-27967M LIEUTENANT GENERAL SURINDER PAL SINGH,
ATI VISHISHT SEVA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL
REGIMENT OF ARTILLERY (**RETIRED**)
3. IC-30708P LIEUTENANT GENERAL ASHOK KUMAR CHOUDHARY,
ATI VISHISHT SEVA MEDAL, SENA MEDAL, VISHISHT SEVA
MEDAL, INFANTRY / HEADQUARTERS BENGAL AREA
4. IC-31324M LIEUTENANT GENERAL KOTHENETH
SURENDRANATH,
ATI VISHISHT SEVA MEDAL, SENA MEDAL, VISHISHT SEVA
MEDAL, ARMoured CORPS / HEADQUARTERS 33RD CORPS
5. VICE ADMIRAL PRADEEP CHAUHAN, AVSM, VSM (01610-H),

6. VICE ADMIRAL MP MURALIDHARAN, AVSM, NM, (01587-F)

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 7-Pres/2013 – The President is pleased to approve the award of the “**Ati Vishisht Seva Medal**” to the undermentioned personnel for distinguished service of an exceptional order:-

1. IC-27269K LIEUTENANT GENERAL SISIR SUBHRA SENGUPTA, VISHISHT SEVA MEDAL, CORPS OF ENGINEERS (**RETIRED**)
2. IC-27969X LIEUTENANT GENERAL RAJESH PANT, VISHISHT SEVA MEDAL, CORPS OF SIGNALS / MILITARY COLLEGE OF TELECOMMUNICATION ENGINEERING, MHOW
3. IC-30462F LIEUTENANT GENERAL AMARJEET SINGH CHABBEWAL, YUDH SEVA MEDAL, ARMOURED CORPS / HEADQUARTERS 2ND CORPS
4. IC-30702N LIEUTENANT GENERAL PHILIP CAMPOSE, VISHISHT SEVA MEDAL, MECHANISED INFANTRY / HEADQUARTERS 12TH CORPS
5. IC-31007L LIEUTENANT GENERAL ANIL MALIK, ARMOURED CORPS / ARMOURED CORPS CENTRE AND SCHOOL
6. IC-31341M LIEUTENANT GENERAL SANJEEV ANAND, VISHISHT SEVA MEDAL, MECHANISED INFANTRY / HEADQUARTERS 10TH CORPS
7. IC-31505X LIEUTENANT GENERAL SUBROTO MITRA, SENA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL INFANTRY / HEADQUARTERS ATNK & K AREA
8. IC-31521P LIEUTENANT GENERAL SURENDRA HARI KULKARNI, VISHISHT SEVA MEDAL AND BAR, ARMOURED CORPS / HEADQUARTERS 21ST CORPS
9. IC-31917Y LIEUTENANT GENERAL SURINDER MOHAN MEHTA, SENA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL AND BAR, CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS/ MILITARY COLLEGE OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS, SECUNDERABAD

10. MR-03516N LIEUTENANT GENERAL MANDEEP SINGH, VISHISHT SEVA MEDAL, ARMY MEDICAL CORPS **(RETIRED)**
11. MR-04125P LIEUTENANT GENERAL SURENDRA SINGH PANWAR, SENA MEDAL, ARMY MEDICAL CORPS / COMMAND HOSPITAL HEADQUARTERS SOUTHERN COMMAND
12. DR-10295P LIEUTENANT GENERAL SWAMINATHAN MURALI MOHAN, ARMY DENTAL CORPS
13. IC-30817F MAJOR GENERAL AJAY KUMAR CHATURVEDI, VISHISHT SEVA MEDAL, CORPS OF ENGINEERS **(RETIRED)**
14. IC-34086W MAJOR GENERAL BAL KRISHAN SHARMA, SENA MEDAL AND BAR INFANTRY **(RETIRED)**
15. IC-34350Y MAJOR GENERAL KAMAL JIT SINGH, ARMoured CORPS
16. IC-34385P MAJOR GENERAL ANIL KUMAR AHUJA, SENA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL AND BAR REGIMENT OF ARTILLERY
17. IC-34396F MAJOR GENERAL RAVINDRAN NARAYAN NAIR, SENA MEDAL, INFANTRY / HEADQUARTERS 21ST MOUNTAIN DIVISION
18. IC-34829N MAJOR GENERAL SANJIV TALWAR, CORPS OF ENGINEERS
19. IC-35173W MAJOR GENERAL RAYMOND JOSEPH NORONHA, SENA MEDAL, INFANTRY / HEADQUARTERS, 8TH MOUNTAIN DIVISION
20. IC-35206W MAJOR GENERAL KONSAM HIMALAY SINGH, YUDH SEVA MEDAL, INFANTRY / HEADQUARTERS 25TH INFANTRY DIVISION
21. IC-35471M MAJOR GENERAL BIPIN RAWAT, YUDH SEVA MEDAL, SENA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL INFANTRY / HEADQUARTERS 19TH INFANTRY DIVISION
22. IC-35487X MAJOR GENERAL NARINDER PAL SINGH HIRA, SENA MEDAL, INFANTRY / HEADQUARTERS 10TH INFANTRY DIVISION

23. IC-35626W MAJOR GENERAL UMESH KUMAR GURUNG, YUDH SEVA MEDAL, INFANTRY / HEADQUARTERS INSPECTOR GENERAL ASSAM RIFLES (SOUTH)
24. IC-37022W MAJOR GENERAL SANJAY KULKARNI, SHAURYA CHAKRA, SENA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL INFANTRY / HEADQUARTERS 56TH INFANTRY DIVISION
25. IC-37204K MAJOR GENERAL BINOY POONNEN, VISHISHT SEVA MEDAL, INFANTRY / HEADQUARTERS 57TH MOUNTAIN DIVISION
26. MR-03691H MAJOR GENERAL RAJAN CHAUDHRY, VISHISHT SEVA MEDAL, ARMY MEDICAL CORPS
27. JC-520361H SUBEDAR MAJOR VIJAY KUMAR, SENA MEDAL, DOGRA REGIMENT / INFANTRY SCHOOL, MHOW
28. REAR ADMIRAL RAKESH PANDIT, NM (01700-N)
29. REAR ADMIRAL KISHORE ONKAR THAKARE, NM (40767-A)
30. REAR ADMIRAL ABHAY RAGHUNATH KARVE (02118-N)
31. REAR ADMIRAL SUDHAKAR THURUMALLA, NM (60301-Y)
32. REAR ADMIRAL KARAMBIR SINGH (02151-N)
33. AIR MARSHAL HERIKUDRU BABU RAJARAM, VSM (14939) ADMINISTRATION/ AIR TRAFFIC CONTROLLER
34. AIR VICE MARSHAL DATTATRAY KESHAO PANDE, VSM (15081), AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
35. AIR VICE MARSHAL NARENDRA BAHADUR SINGH, VSM (15635), AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
36. AIR VICE MARSHAL BIPIN BIHARI PRASAD SINHA (15748) ADMINISTRATION
37. AIR VICE MARSHAL RAKESH KUMAR SINGH BHADAURIA, VM (16026) FLYING (PILOT)
38. AIR VICE MARSHAL SARDAR HARPAL SINGH, VM (16071) FLYING (PILOT)

39. AIR COMMODORE ASHWANI KUMAR NABH, VM (16608) FLYING (PILOT)
40. AIR COMMODORE SURESH SINGH, VSM (16941)
AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
41. AIR COMMODORE MANAVENDRA SINGH, VrC, VSM (16983)
FLYING (PILOT)
42. AIR COMMODORE SANDEEP SINGH, VM (17312) FLYING (PILOT)
43. AIR COMMODORE RAJENDRA NALSINGHRAO GAEKWAD, VSM
(17845) FLYING (PILOT)
44. AIR COMMODORE RADHAKRISHNAN RADHISH, VM (17853)
FLYING (PILOT)

(Suresh Yadav)
OSD to the President

No. 8-Pres/2013 – The President is pleased to approve the award of the “**Yuddh Seva Medal**” to the undermentioned personnel for the distinguished service of a high order during hostilities:

1. IC-38796L BRIGADIER SUNIL YADAV,
JAMMU AND KASHMIR RIFLES / HEADQUARTERS 10TH
INFANTRY BRIGADE
2. IC 41521H BRIGADIER HARSHA GUPTA,
SIKH LIGHT INFANTRY / HEADQUARTERS 68TH MOUNTAIN
BRIGADE
3. IC-41672F BRIGADIER SANJEEV KUMAR SHARMA,
RAJPUTANA RIFLES / HEADQUARTERS 109TH INFANTRY
BRIGADE
4. IC-41885P BRIGADIER U SURESH KUMAR, VISHISHT SEVA
MEDAL, PUNJAB REGIMENT / HEADQUARTERS 5TH SECTOR
RASHTRIYA RIFLES
5. IC-41927W BRIGADIER SHIVINDER SINGH
GARHWAL RIFLES / HEADQUARTERS 12TH SECTOR RASHTRIYA
RIFLES

6. IC-42278H BRIGADIER BIJOY DHOJ RAI,
PARACHUTE REGIMENT / HEADQUARTERS 7TH SECTOR ASSAM
RIFLES
7. IC-42389A BRIGADIER RAJU BAGGAVALLI SOMASHEKAR
JAT REGIMENT / HEADQUARTERS 12TH INFANTRY BRIGADE
8. IC-42491H BRIGADIER CHANDI PRASAD SANGRA
MARATHA LIGHT INFANTRY / HEADQUARTERS 79TH
MOUNTAIN BRIGADE
9. IC-45244A BRIGADIER SANJAY KUMAR RAO
SIKH REGIMENT / HEADQUARTERS 102ND INFANTRY BRIGADE
10. IC-50623A COLONEL CK RAJESH, SENA MEDAL AND BAR,
BRIGADE OF THE GUARDS / 21ST BATTALION THE RASHTRIYA
RIFLES
11. IC-54023P COLONEL SANJIV MEHROTRA,
9TH BATTALION THE SIKH LIGHT INFANTRY
12. IC-55474F COLONEL MOHIT KHOKHRAN,
13TH BATTALION THE SIKH REGIMENT

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 9-Pres/2013 – The President is pleased to approve the award of the “**Bar to Vishisht Seva Medal**” to the undermentioned personnel for distinguished service of a high order :-

1. IC-34648H MAJOR GENERAL SURESH CHANDRA JAIN, VISHISHT SEVA MEDAL, CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS (**RETIRED**)
2. IC-35479Y MAJOR GENERAL BALWANT SINGH NEGI,
YUDH SEVA MEDAL, SENA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL
INFANTRY / HEADQUARTERS COUNTER INSURGENCY FORCE
(UNIFORM)
3. IC-36905N MAJOR GENERAL MELACHEVAL SRINIVASAN
SANTHANA KRISHNAN, VISHISHT SEVA MEDAL, ARMY
ORDNANCE CORPS (**RETIRED**)

4. IC-41464M BRIGADIER TEJPAL SINGH RAWAT, VISHISHT SEVA MEDAL, CORPS OF ENGINEERS / HEADQUARTERS CHIEF ENGINEER (PROJECT) BEACON

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 10–Pres/2013 – The President is pleased to approve the award of the “**Vishisht Seva Medal**” to the undermentioned personnel for distinguished service of a high order :-

1. IC-31642W MAJOR GENERAL NRUSINGHA PRASAD PADHI,
CORPS OF ENGINEERS / HEADQUARTERS SOUTHERN COMMAND
2. IC-34014M MAJOR GENERAL AMIT SHARMA,
ARMoured CORPS / HEADQUARTERS 54TH INFANTRY DIVISION
3. IC-34338X MAJOR GENERAL GURDARSHAN SINGH SHERGILL,
INFANTRY / HEADQUARTERS COUNTER INSURGENCY FORCE
(ROMEO)
4. IC-34436X MAJOR GENERAL KHURSHED MANECK BALSARA,
SENA MEDAL, INFANTRY / HEADQUARTERS, 3RD INFANTRY
DIVISION
5. IC-34708M MAJOR GENERAL GOPAL SINGH BISHT,
CORPS OF SIGNALS / HEADQUARTERS WESTERN COMMAND
6. IC-34760P MAJOR GENERAL PRAVEEN BAKSHI,
ARMoured CORPS / HEADQUARTERS SOUTHERN COMMAND
7. IC-35115M MAJOR GENERAL JAGBIR SINGH,
MECHANISED INFANTRY / HEADQUARTERS 16TH INFANTRY
DIVISION
8. IC-35201X MAJOR GENERAL AJAI KUMAR SAHGAL,
ARMY AIR DEFENCE / SELECTION CENTRE CENTRAL, BHOPAL
9. IC-35307K MAJOR GENERAL VELAYUDHAN NAIR PRASAD, SENA
MEDAL, INFANTRY / HEADQUARTERS 17TH MOUNTAIN DIVISION
10. IC-35481W MAJOR GENERAL RAJIV NARAYANAN,
ARMoured CORPS / HEDQUARTERS 2ND MOUNTAIN DIVISION

11. IC-35515Y MAJOR GENERAL BHABANI S DAS, SENA MEDAL, INFANTRY / HEADQUARTERS INSPECTOR GENERAL ASSAM RIFLES (NORTH)
12. IC-35586A MAJOR GENERAL BHUPINDER SINGH SAROYA MECHANISED INFANTRY / HEADQUARTERS EASTERN COMMAND
13. IC-35610L MAJOR GENERAL BALBIR SINGH SANDHU, ARMY SERVICE CORPS / HEADQUARTERS SOUTH WESTERN COMMAND
14. IC-35650M MAJOR GENERAL BOBBY CHERIAN MATHEWS, INFANTRY / HEADQUARTER 27TH MOUNTAIN DIVISION
15. IC-36786H MAJOR GENERAL GURCHARAN SINGH LAMBA, CORPS OF SIGNALS / HEADQUARTERS SOUTH WESTERN COMMAND
16. IC-36913M MAJOR GENERAL LALIT KUMAR RAMPAL, INFANTRY / OFFICERS TRAINING ACADEMY, GAYA
17. IC-37297K MAJOR GENERAL RATTAN KUMAR MATTU, CORPS OF ENGINEERS
18. IC-38621H MAJOR GENERAL PRADYOT KUMAR MALLICK, CORPS OF SIGNALS / HEADQUARTERS CENTRAL COMMAND
19. MR-03592A MAJOR GENERAL BHIM SINGH VERMA, ARMY MEDICAL CORPS / HEADQUARTERS NORTHERN COMMAND
20. IC-35923K BRIGADIER JAGBIR SINGH CHEEMA, SIKH REGIMENT / HEADQUARTERS 16TH CORPS
21. IC-37977K BRIGADIER UMAR FAROOK A, CORPS OF SIGNALS / HEADQUARTERS, 5TH SIGNAL GROUP
22. IC-39076W BRIGADIER PRAVEEN DIXIT, ARMOURED CORPS / HEADQUARTERS SOUTH WESTERN COMMAND
23. IC-39180K BRIGADIER RAJIV MISHRA, REGIMENT OF ARTILLERY

24. IC-39457X BRIGADIER MOHANDEEP SINGH GHURA,
RAJPUTANA RIFLES / DEFENCE SERVICES STAFF COLLEGE,
WELLINGTON
25. IC-40366A BRIGADIER ANAND SINGH RAWAT, SENA MEDAL,
SIKH LIGHT INFANTRY / PURVA UTTAR PRADESH & MADHYA
PRADESH SUB AREA
26. IC-40395P BRIGADIER NIETZSCHE BALAN,
MAHAR REGIMENT / HEADQUARTERS DELHI AREA
27. IC-40824L BRIGADIER AJAY SETH,
GARHWAL RIFLES / HEADQUARTERS 6TH SECTOR RASHTRIYA
RIFLES
28. IC-41072Y BRIGADIER RAJEEV SIROHI,
GRENADIERS / HEADQUARTERS 163RD INFANTRY BRIGADE
29. IC-41235F BRIGADIER SANJEEV SAINI,
GORKHA RIFLES / HEADQUARTERS 161ST INFANTRY BRIGADE
30. IC-41478M BRIGADIER SHAILESH SADASHIV TINAIKAR, SENA
MEDAL, PARACHUTE REGIMENT / HEADQUARTERS 11TH
MOUNTAIN BRIGADE
31. IC-41488W BRIGADIER RAJEEV CHAUDHRY,
CORPS OF ENGINEERS / HEADQUARTERS 471ST ENGINEER
BRIGADE
32. IC-41566H BRIGADIER VIVEK KRISHAN SINGH,
ARMOURED CORPS / UNIT 274TH
33. IC-41860L BRIGADIER SHANTANU DAYAL,
GARHWAL RIFLES / HEADQUARTERS 181ST MOUNTAIN BRIGADE
34. IC-41914Y BRIGADIER PRITAM BISHNOI,
CORPS OF SIGNALS / HEADQUARTERS NORTHERN COMMAND
35. IC-42288M BRIGADIER ANIL PURI,
CORPS OF ENGINEERS / HEADQUARTERS 81ST MOUNTAIN
BRIGADE
36. IC-42400N BRIGADIER TUMUL VARMA,
CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS/508TH
ARMY BASE WORKSHOP

37. IC-42485P BRIGADIER RAJ SINHA,
5TH BATTALION THE GORKHA RIFLES (FRONTIER FORCES)/
HEADQUARTERS 76TH INFANTRY BRIGADE
38. IC-42516K BRIGADIER OM PRAKASH GULIA, SENA MEDAL
BIHAR REGIMENT / HEADQUARTERS 330TH INFANTRY BRIGADE
39. IC-42552P BRIGADIER SARVAJIT SINGH,
CORPS OF ENGINEERS / HEADQUARTERS 3RD CORPS
40. IC-43169H BRIGADIER MAHENDER SINGH,
CORPS OF ENGINEERS
41. IC-45126M BRIGADIER NARENDER KUMAR, SENA MEDAL
MADRAS REGIMENT / HEADQUARTERS 10TH SECTOR ASSAM
RIFLES
42. IC 45175P BRIGADIER RANDHIR SINGH,
MECHANISED INFANTRY / HEADQUARTERS 192ND MOUNTAIN
BRIGADE
43. IC-45191M BRIGADIER RAJENDER SINGH SHEKHAWAT, SENA
MEDAL, RAJPUTANA RIFLES / HEADQUARTERS 114TH INFANTRY
BRIGADE
44. MR-04139P BRIGADIER MADDUR DORAISWAMY IYENGAR
VENKATESH, ARMY MEDICAL CORPS / DIRECTORATE GENERAL
ARMED FORCES MEDICAL SERVICES
45. MR-04758H BRIGADIER DARSHAN SINGH BHAKUNI,
ARMY MEDICAL CORPS / ARMY HOSPITAL (RESEARCH &
REFERRAL)
46. SL-03159W BRIGADIER JASBIR SINGH JASWAL,
GENERAL SERVICE
47. IC-41977F COLONEL DHARAMVEER SINGH SUHAG,
4/9TH BATTALION THE GORKHA RIFLES
48. IC-43842Y COLONEL MANIK KUMAR DAS, SENA MEDAL AND
BAR, JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY
49. IC-44057P COLONEL RAJIV MANKOTIA,
4TH BATTALION THE GORKHA RIFLES

50. IC-46002K COLONEL PRAVEEN KUMAR, SENA MEDAL
JUDGE ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT / HEADQUARTERS
15TH CORPS
51. IC-47047W COLONEL JAI SINGH YADAV,
DOGRA REGIMENT
52. IC-47718P COLONEL JAIVEER SINGH SARAN,
MADRAS REGIMENT / INFANTRY SCHOOL, MHOW
53. IC-48061P COLONEL SUDHANWA ATRE,
PARACHUTE REGIMENT / 12TH BATTALION THE ASSAM RIFLES
54. IC-49286K COLONEL ANURAAG CHHIBBER,
BRIGADE OF THE GUARDS
55. IC-51018Y COLONEL UMAID SINGH RATHORE,
667TH ARMY AVIATION SQUADRON (RECONNAISSANCE AND
OBSERVATION)
56. IC-51957F COLONEL VIVEK SINGH,
61ST ENGINEER REGIMENT
57. IC-53582M COLONEL CHANDAN SINGH PATHANIA,
17TH BATTALION THE MAHAR REGIMENT
58. IC-53596M COLONEL DEEPAK SHARMA,
20TH BATTALION THE KUMAON REGIMENT
59. IC-54894P COLONEL SUNIL DUTT UPADHYAY,
REGIMENT OF ARTILLERY / 315TH BATTALION THE FIELD
REGIMENT
60. IC-54995H COLONEL CHANDER SHEKHAR BHATTI,
2ND BATTALION THE GRENADIERS
61. MR-05065X COLONEL RANJIT SINGH BAWA,
ARMY MEDICAL CORPS / 92ND BASE HOSPITAL
62. IC-62115W MAJOR RANVEER SINGH JAMWAL,
JAT REGIMENT / INDIAN ARMY WOMEN EVEREST EXPEDITION
2012

63. MR-08413Y MAJOR NEIKHRIETUONUO LINYU,
ARMY MEDICAL CORPS / INDIAN ARMY WOMEN EVEREST
EXPEDITION 2012
64. WS-00688X MAJOR NEHA BHATNAGAR,
CORPS OF ENGINEERS / INDIAN ARMY WOMEN EVEREST
EXPEDITION 2012
65. SS-44235M CAPTAIN SMITHA L,
CORPS OF SIGNALS / INDIAN ARMY WOMEN EVEREST
EXPEDITION 2012
66. WS-01363W CAPTAIN NAMRATA RATHORE,
CORPS OF ENGINEERS / INDIAN ARMY WOMEN EVEREST
EXPEDITION 2012
67. WS-01369X CAPTAIN POONAM SANGWAN,
ARMY ORDNANCE CORPS / INDIAN ARMY WOMEN EVEREST
EXPEDITION 2012
68. WS-01399P CAPTAIN PRACHI R GOLE,
ARMY ORDNANCE CORPS
INDIAN ARMY WOMEN EVEREST EXPEDITION 2012
69. WS-01474N CAPTAIN DEEPIKA RATHORE,
ARMY ORDNANCE CORPS / INDIAN ARMY WOMEN EVEREST
EXPEDITION 2012
70. JC-530339L SUBEDAR TAJPAL SINGH, SENA MEDAL, GARHWAL
RIFLES / INDIAN ARMY WOMEN EVEREST EXPEDITION 2012
71. JC-539371F SUBEDAR RAJENDRA SINGH JALAL,
KUMAON REGIMENT / INDIAN ARMY WOMEN EVEREST
EXPEDITION 2012
72. 15185088L HAVILDAR LAISHIRAM DEBENDRO SINGH,
REGIMENT OF ARTILLERY / ARMY SPORT INSTITUTE, PUNE
73. REAR ADMIRAL ANIL KUMAR CHAWLA, NM (02312-B)
74. REAR ADMIRAL SISHTLA RAJASEKHARA SARMA (50832-A)
75. COMMODORE ASPI CAWASJI, NM (02190-A)

76. COMMODORE SRINIVAS KANUGO (50781-K)
77. COMMODORE AJAY SAXENA (02490-H)
78. COMMODORE PRADEEP RANA (02688-H)
79. COMMODORE VIJESH KUMAR GARG (02670-T)
80. COMMODORE SANJIV RAJ KAPOOR (02796-B)
81. COMMODORE KIRAN MANIKRAO DESHMUKH (41147-R)-
82. COMMODORE GK HARISH (41159-T)
83. SURGEON COMMODORE VENKATA SARVESWARA SUBBARAO
RYALI
(75271-W)
84. SURGEON COMMODORE GIRISH GUPTA, NM (75445-R)
85. CAPTAIN SUSHANT DAM (03178-Y)
86. CAPTAIN THANIGAI ANANDAN ARUMUGAM (03643-B)
87. COMMANDER DINESH SINGH (03289-Z)
88. KANDADYE ANANT, MCERA II, 176210-B
89. AIR COMMODORE KACHERI MADATHIL SIVARAMA MENON
PRADEEP (15818), AERONAUTICAL ENGINEERING
(ELECTRONICS)
90. AIR COMMODORE SUNIL JAYANT NANODKAR, VM (16555)
FLYING (PILOT)
91. AIR COMMODORE SOUMITRA KUMAR DEY (17030)
ADMINISTRATION
92. AIR COMMODORE PRASHANT MUKUND VITHALKAR, VM (17855)
FLYING (PILOT)
93. AIR COMMODORE SAVINDER PAL SINGH (18116) FLYING (PILOT)

94. GROUP CAPTAIN MYSORE ANANTHAPADMANABHASHARMA SRIDHAR (17027) ADMINISTRATION /AIR TRAFFIC CONTROLLER
95. GROUP CAPTAIN NEERAJ SRIVASTAVA (17787) LOGISTICS
96. GROUP CAPTAIN NRIP KUMAR MEHTA (17886) ADMINISTRATION
97. GROUP CAPTAIN SADHANA S NAIR (18197) MEDICAL
98. GROUP CAPTAIN VIJAY KUMAR GARG (18493) AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
99. GROUP CAPTAIN DEVARAJAN BALAMURALI (18520) AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
100. GROUP CAPTAIN JEETENDRA MISHRA (18575) FLYING (PILOT)
101. GROUP CAPTAIN BRIJ MOHAN TYAGI (18795) FLYING (PILOT)
102. GROUP CAPTAIN PUNEET SURINDERNATH SARIN (19073) AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
103. GROUP CAPTAIN SHOVIT JAIN (19078) AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
104. GROUP CAPTAIN RAJIV MITTAL (19109) AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
105. GROUP CAPTAIN ACHUTHAN JAYANTHAN (19497) LOGISTICS
106. GROUP CAPTAIN VIKRAM RAJASEKHAR (19714) AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
107. GROUP CAPTAIN SANEEL OHRI (19731) AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
108. GROUP CAPTAIN PRADIP KUMAR ROUTA (20565) AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
109. GROUP CAPTAIN ICHETTIRA IYAPPA KUTTAPPA, VM (20758) FLYING (PILOT)

110. GROUP CAPTAIN GORANTLA KASI JALANDHAR REDDY (20990)
FLYING (PILOT)
111. GROUP CAPTAIN VIKRAM GAUR (21008) FLYING (PILOT)
112. GROUP CAPTAIN RAMASAMUDRA ANANTHAMURTHY RANJAN
RAM (21755), AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
113. GROUP CAPTAIN AJAY KUMAR SINGH (21985) FLYING
(NAVIGATOR)
114. WING COMMANDER CHANDRASHEKAR SREENIVAS (20196)
ADMINISTRATION/AIR TRAFFIC CONTROLLER
115. WING COMMANDER UPDESH SHARMA (21653) ACCOUNTS
116. WING COMMANDER PARAMJEET SINGH (21929)
ADMINISTRATION / FIGHTER CONTROLLER

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 11—Pres/2013 – The President is pleased to approve the award of the “Sena Medal/Army Medal” to the undermentioned personnel for the acts of exceptional courage:-

1. IC-53687W COLONEL VIKRANT AVINASH DESAI,
PUNJAB REGIMENT / 24TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
2. IC-54879A COLONEL DEEPAK SAJJANHAR,
1ST BATTALION THE NAGA REGIMENT
3. IC-55340H COLONEL LALIT SHARMA, SHAURYA CHAKRA,
3RD BATTALION THE GRENADIERS
4. IC-58485Y LT COL DEEPAK SINGH SAMANT,
KUMAON REGIMENT / 13TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
5. IC-60642Y MAJOR DHIRENDER YADAV,
ARMY AVIATION / 19TH RECONNAISSANCE AND OBSERVATION
FLIGHT
6. IC-60861A MAJOR GAURAV DOGRA,
RAJPUT REGIMENT / 58TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

7. IC-60879W MAJOR SUNIL DAGAR,
ARMY AVIATION / 23RD (INDEPENDENT) RECONNAISSANCE
AND OBSERVATION FLIGHT
8. IC-61856F MAJOR SOMBIR SINGH LAMBA,
ARMY SERVICE CORPS / 34TH BATTALION THE RASHTRIYA
RIFLES
9. IC-62531A MAJOR SAPAM ZENET,
ARMY SERVICE CORPS / 29TH BATTALION
THE RASHTRIYA RIFLES
10. IC-62588P MAJOR SANDEEP SHARMA,
13 SIKH LIGHT INFANTRY BATTALION GROUP
11. IC-62680N MAJOR SADEEP KHAWAS,
REGIMENT OF ARTILLERY / 33RD BATTALION THE FIELD
REGIMENT
12. IC-62920A MAJOR ABHISHEK KUKRETI,
CORPS OF ENGINEERS/ 34TH BATTALION
THE RASHTRIYA RIFLES
13. IC-63103N MAJOR SUHEL SINGH SALARIA,
13TH BATTALION THE SIKH REGIMENT
14. IC-63403P MAJOR BHEEMAIAH PS,
10TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL
FORCES)
15. IC-63811A MAJOR DARA SINGH CHAHAL,
2ND BATTALION THE GRENADIERS
16. IC-63876N MAJOR NAWAZESH N PATEL,
PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) /
21ST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
17. IC-63939L MAJOR VINOD KUMAR,
ARMY SERVICE CORPS / 21ST BATTALION
THE RASHTRIYA RIFLES
18. IC-64883W MAJOR RAJEEV KUMAR,
1ST BATTALION THE MARATHA LIGHT INFANTRY

19. IC-65610A MAJOR AJAY KUMAR,
SIKH REGIMENT / 27TH BATTALION THE ASSAM RIFLES
20. IC-66883P MAJOR YOGESHWAR SINGH,
3RD BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT
(SPECIAL FORCES)
21. IC-67625F MAJOR SANJEEV SINGH,
MECHANISED INFANTRY / 27TH BATTALION THE ASSAM RIFLES
22. IC-67745A MAJOR ASHWINI KUMAR DIXIT,
CORPS OF ENGINEERS / 29TH BATTALION
THE RASHTRIYA RIFLES
23. IC-68162K MAJOR ASHISH SRIVASTAVA,
18TH BATTALION THE SIKH REGIMENT
24. IC-69283X MAJOR SONU K SIDHARTHAN,
REGIMENT OF ARTILLERY / 17TH BATTALION THE RASHTRIYA
RIFLES
25. IC-70460Y MAJOR ARJUN KUMAR BUTOLA,
22ND BATTALION THE MARATHA LIGHT INFANTRY
26. IC-70643P MAJOR AMAL SALI,
1ST BATTALION THE NAGA REGIMENT
27. IC-72852L MAJOR PRATEEK MALIK,
ARMOURED CORPS / 3RD BATTALION THE JAMMU AND
KASHMIR RIFLES
28. IC-72889M MAJOR SWAGAT SHARMA,
ARMOURED CORPS / 24TH BATTALION
THE RASHTRIYA RIFLES
29. SS-40378P MAJOR SALIM KHAN,
SIKH REGIMENT / 6TH BATTALION
THE RASHTRIYA RIFLES
30. IC-71529K CAPTAIN VISHWAKARMA SUDHANSHU JAGANNATH,
10TH BATTALION THE SIKH LIGHT INFANTRY
31. IC-74999A CAPTAIN V ARUL,
3RD BATTALION THE GRENADIERS

32. SS-43019M CAPTAIN AYANANGSHU HAZRA,
9TH BATTALION THE MADRAS REGIMENT
33. IC-72254N LIEUTENANT AJAY SINGH PATHANIA,
ARMY SERVICES CORPS / 33RD BATTALION THE FIELD
REGIMENT
34. IC-75156Y LIEUTENANT MOHIT JATAIN,
CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS /
3RD BATTALION THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES
35. SS-44395M LIEUTENANT NIRAV PATHANIA,
ARMY ORDNANCE CORPS / 2/3RD BATTALION THE GORKHA
RIFLES
36. AR-355 ASSISTANT COMMANDANT RAJ KISHOR,
33RD BATTALION THE ASSAM RIFLES
37. JC-439956A SUBEDAR GNANASEKHAR REDDY,
9TH BATTALION THE MADRAS REGIMENT
38. 3995986P HAVILDAR KARAM CHAND THAKUR,
PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) / 6TH BATTALION
THE RASHTRIYA RIFLES
39. 4087917K HAVILDAR RAGHUVeer CHAND,
GARHWAL REGIMENT / 1 UTTARAKHAND (INDEPENDENT)
COMPANY NCC
40. 4273971W HAVILDAR ARBIND KUMAR,
THE BIHAR REGIMENT / 24TH BATTALION
THE RASHTRIYA RIFLES
41. 14434471K HAVILDAR RAJNISH KUMAR,
REGIMENT OF ARTILLERY / 33RD BATTALION THE FIELD
REGIMENT
42. 2689299N LANCE HAVILDAR HARVINDER SINGH,
3RD BATTALION THE GRENADIERS
(POSTHUMOUS)
43. G/104947F LANCE HAVILDAR L KAMINI SINGH,
10TH BATTALION THE ASSAM RIFLES

44. 2798125K LANCE NAIK PATIL LAKSHMAN NAMDEO,
1ST BATTALION THE MARATHA LIGHT INFANTRY
45. 3404348H LANCE NAIK KUL WINDER SINGH,
18TH BATTALION THE SIKH REGIMENT
46. 4479157L LANCE NAIK DALJIT SINGH,
9TH BATTALION THE SIKH LIGHT INFANTRY
47. 13623707F LANCE NAIK SREEKESH SUKUMARAN,
9TH BATTALION THE MADRAS REGIMENT
48. 13763846H LANCE NAIK AJAY KUMAR THAPA
3RD BATTALION THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES
49. 3406917K SEPOY CHANAN SINGH,
18TH BATTALION THE SIKH REGIMENT
50. 4574805N SEPOY SANDEEP,
MAHAR REGIMENT / 30TH BATTALION
THE RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
51. 14704478X SEPOY FRANCIS WOPEN J HUMTSOE,
1ST BATTALION THE NAGA REGIMENT
52. 4091577K RIFLEMAN CHANDAR SINGH,
GARHWAL RIFLES / 36TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
(POSTHUMOUS)
53. 16016556W RIFLEMAN GIRDHARI RAM,
RAJPUTANA RIFLES / 43RD BATTALION
THE RASHTRIYA RIFLES
54. G/5003953H RIFLEMAN SOROKHAIBAM SHANTI KUMAR,
33RD BATTALION THE ASSAM RIFLES
55. 2703367K GRENADEIER RANJEET SINGH YADAV,
22ND BATTALION THE GRENADEIERS
56. 14440737F GUNNER GOPAL, REGIMENT OF ARTILLERY / 6TH
BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 12-Pres/2013 – The President is pleased to approve the award of the **“Bar to Nao Sena Medal”** to the COMMANDER SRIVATSA SESHADRI, NM (03717-Y) for the acts of exceptional courage.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 13-Pres/2013 – The President is pleased to approve the award of the **“Nao Sena Medal”** to the undermentioned personnel for the act of exceptional courage:

1. LIEUTENANT COMMANDER DHIRENDER BISHT (05858-N)
2. LIEUTENANT HARISANKER (06133-N)
3. MUKESH KUMAR CHME (177091-F)

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 14-Pres/2013 – The President is pleased to approve the award of the **“Vayu Sena Medal/Air Force Medal”** to the undermentioned personnel for the act of exceptional courage:

1. WING COMMANDER GURKIRAT SINGH SOHAL (24181)
FLYING (PILOT)
2. WING COMMANDER CHICKMANDYA GIRISH DEEPAK (24487)
FLYING (PILOT)
3. FLIGHT LIEUTENANT SIDDHARTH CHOPRA (29487)
FLYING (PILOT)

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 15-Pres/2013– The President is pleased to approve the award of the **“Bar to Sena Medal/Army Medal”** to the undermentioned personnel for the acts of exceptional devotion to duty:-

1. IC-35499M MAJOR GENERAL MADINANI RAMESH BABU, SENA MEDAL, INFANTRY / HEADQUARTERS COUNTER INSURGENCY FORCE (DELTA)
2. IC-54082F COLONEL VIKRAM SINGH GULERIA, SENA MEDAL RAJPUT REGIMENT / 10TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 16-Pres/2013— The President is pleased to approve the award of the “Sena Medal/Army Medal” to the undermentioned personnel for the acts of exceptional devotion to duty:-

1. IC-31634X MAJOR GENERAL RAVINDRA SINGH PANWAR,
VISHISHT SEVA MEDAL, CORPS OF SIGNALS/HEADQUARTERS
NORTHERN COMMAND
2. IC-35109Y MAJOR GENERAL RAJEEV VASANT KANITKAR,
ARMOURED CORPS / HEADQUARTERS 23RD INFANTRY DIVISION
3. IC-35110N MAJOR GENERAL VENUGOPAL MENON, VISHISHT
SEVA MEDAL, CORPS OF ENGINEERS / HEADQUARTERS
NORTHERN COMMAND
4. IC 41089M BRIGADIER RAMESH KUMAR RAINA,
GARHWAL RIFLES / HEADQUARTERS 21ST SUB AREA
5. IC-41136Y BRIGADIER BALRAJ MEHTA,
BIHAR REGIMENT / HEADQUARTERS 80TH INFANTRY BRIGADE
6. IC-41522L BRIGADIER ANANTA BHUYAN,
KUMAON REGIMENT / HEADQUARTERS 77TH MOUNTAIN
BRIGADE
7. IC-41668Y BRIGADIER ASHIM KOHLI,
REGIMENT OF ARTILLERY / HEADQUARTERS 44TH MOUNTIAN
BRIGADE
8. IC-41906A BRIGADIER SANJAY RAI,
BIHAR REGIMENT / HEADQUARTERS 167TH INFANTRY BRIGADE
9. IC-42004X BRIGADIER RANA PRATAP KALITA, VISHISHT SEVA
MEDAL, KUMAON REGIMENT / HEDQUARTERS 71ST MOUNTIAN
BRIGADE
10. IC-42270W BRIGADIER KAMAL KUMAR REPSWAL,
CORPS OF ENGINEERS / CHIEF ENGINEERS ANDAMAN AND
NICOBAR ZONE

11. IC-42538H BRIGADIER ATULYA SOLANKEY,
11TH GORKHA RIFLES / HEADQUARTERS 9 (I) MOUNTAIN
BRIGADE GROUP
12. IC-45006N BRIGADIER ASHUTOSH SIROTHIA,
MADRAS REGIMENT / HEADQUARTERS 104 INFANTRY BRIGADE
13. IC-45297Y BRIGADIER SHAMMI RAJ,
REGIMENT OF ARTILLERY / HEADQUARTERS 121ST (I)
INFANTRY BRIGADE GROUP
14. IC-50610H COLONEL ATUL KUMAR,
REGIMENT OF ARTILLERY / 30TH BATTALION THE ASSAM
RIFLES
15. IC-52370P COLONEL RAJEEV NAGYAL,
3RD BATTALION THE GORKHA RIFLES / 35TH BATTALION THE
ASSAM RIFLES
16. IC-52483X COLONEL KISHAN MOHAN AGARWAL,
15TH ENGINEER REGIMENT
17. IC-52513K COLONEL VIKRAM SINGH PATHANIA,
3RD BATTALION THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES
18. IC-52757X COLONEL SUDHANSHU SHARMA,
1/3RD BATTALION THE GORKHA RIFLES
19. IC-53133X COLONEL AMARESH GUNJAN,
10TH BATTALION THE GARHWAL RIFLES
20. IC-53209M COLONEL NARINDER SINGH,
2ND BATTALION THE RAJPUTANA RIFLES
21. IC-53723W COLONEL RAMAN SHARMA,
RAJPUTANA RIFLES / 43RD BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
22. IC-53832H COLONEL MANISH SHARMA,
8TH BATTALION THE RAJPUTANA RIFLES
23. IC-53934Y COLONEL YASHDEEP SANGWAN,
19TH BATTALION THE MADRAS REGIMENT
24. IC-54048F COLONEL NARESH KUMAR BHAGASRA,
8TH BATTALION THE DOGRA REGIMENT

25. IC-54430X COLONEL RAJ KUMAR,
15TH BATTALION THE DOGRA REGIMENT
26. IC-54512A COL BIKRAM SAINI,
PUNJAB REGIMENT / 22ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
27. IC-55127H COLONEL AMARDEEP SINGH BALI,
10TH BATTALION THE SIKH LIGHT INFANTRY
28. IC-55141P COLONEL SANJEEV KUMAR,
20TH BATTALION THE PUNJAB REGIMENT
29. IC-55143A COLONEL PARAM JEET SINGH,
JAT REGIMENT / 34TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
30. IC-50975X LIEUTENANT COLONEL RAM NIWAS,
BRIDAGE OF THE GUARDS / ORDNANCE FACTORY, CHANDA
31. IC-55461K LIEUTENANT COLONEL DHANANJAY M BHOSALE,
202ND ARMY AVIATION SQUADRON (UTILITY HELICOPTER)
32. IC-55473Y LIEUTENANT COLONEL RAJESH KUMAR SHUKLA,
SIKH LIGHT INFANTRY / 2ND BATTALION THE RASHTRIYA
RIFLES
33. IC-61019P MAJOR ATUL KUMAR SHARMA,
1/11TH BATTALION THE GORKHA RIFLES
34. IC-62147Y MAJOR VASUDEVAN,
DOGRA REGIMENT / DOGRA SCOUTS
35. IC-66846F MAJOR PRADEEP SINGH RATHORE,
ARMY AVIATION CORPS / 38TH (INDEPENDENT)
RECONNAISSANCE AND OBSERVATION FLIGHT
36. 15670318Y NAIK BHASKAR DEURI,
CORPS OF SIGNALS / 19TH WIRELESS EXPERIMENTAL UNIT
37. 4080082X LANCE NAIK ARUN KUMAR,
13TH BATTALION THE GARHWAL RIFLES

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 17-Pres/2013 – The President is pleased to approve the award of the **“Bar to Nao Sena Medal”** to the COMMODORE RAKESH KUMAR MEHTA, NM (02577-F) for the acts of exceptional devotion to duty.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 18-Pres/2013 – The President is pleased to approve the award of the **“Nao Sena Medal”** to the undermentioned personnel for the acts of exceptional devotion to duty:-

1. SURGEON REAR ADMIRAL PAVAN SARIN (75219-A)
2. COMMODORE AJAY KUMAR MANNOOR RAGHAVAN, VSM, (02025-A)
3. COMMODORE ATUL KUMAR KOKANTHANKAR (02793-Y)
4. COMMODORE RAVI AHLUWALIA (03023-W)
5. SURGEON COMMODORE RAVI KALRA, VSM (75281-T)
6. CAPTAIN P ASHOKAN (02722-K)
7. CAPTAIN AJAY KOCHHAR (03326-H)

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 19-Pres/2013 – The President is pleased to approve the award of the **“Vayu Sena Medal/Air Force Medal”** to the undermentioned personnel for the acts of exceptional devotion to duty:-

1. AIR COMMODORE MULPURU VENKAT RAMA RAO (18115) FLYING (PILOT)
2. AIR COMMODORE BAKUL VAIKUNTHRAI UPADHYAY (18281) FLYING (PILOT)
3. GROUP CAPTAIN DHANANJAY VASANT KHOT (19516) FLYING (PILOT)
4. GROUP CAPTAIN MILIND KUMAR (20479) FLYING (PILOT)
5. GROUP CAPTAIN NEERAJ KUMAR (21257) FLYING (PILOT)
6. GROUP CAPTAIN SANJEEV VASHISHTH (21818) FLYING (PILOT)

7. GROUP CAPTAIN RAN SINGH (22110) FLYING (PILOT)
8. GROUP CAPTAIN SUCHARU RAI (22119) FLYING (PILOT)
9. GROUP CAPTAIN HIRENDRA ASSUDANI (22137) FLYING (PILOT)
10. WING COMMANDER SAMPURAN SINGH GAHLAUT (21503) FLYING (PILOT)
11. WING COMMANDER ASHISH SRIVASTAVA (22523) FLYING (PILOT)
12. WING COMMANDER SUNDARAMANI KRISHNAN (22933) FLYING (PILOT)
13. WING COMMANDER SAGAR MADHUKAR PARANJPE (22945) FLYING (PILOT)
14. WING COMMANDER KUNTAL BRATA BANDYOPADHYAY (22952) FLYING (PILOT)

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 20-Pres/2013 – The President is pleased to give orders for publication in the Gazette of India of the names of the undermentioned officers/personnel for “**Mention in Despatches**” received by the **Raksha Mantri** from the “**Chief of the Army Staff**”:-

OPERATION RAKSHAK

1. IC-57161F LT COL GURDEEP SINGH, 666 ARMY AVN SQN (R&O)
2. IC-59307H MAJ SANDEEP SINGH AULUKH, 666 ARMY AVN SQN (R&O)
3. IC-66181W MAJ RAKESH YADAV, SM, PARA, 6 RR
4. JC-379695L NB SUB NARESH KUMAR, SIGNALS, 15 CESR
5. JC-404690A NB SUB RAMESH KUMAR, GUARDS, 21 RR
6. 15716416A SIGMN VAISHNO VEER SINGH, SIGNALS, 15 CESR

OPERATION RHINO

1. IC-62350P MAJ NAVDEEP KUMAR MALHOTRA, 19 MADRAS
2. IC-72710N CAPT DINESH KUMAR YADAV, EME, 9 SIKH LI
3. SS-42732X CAPT ARUN GEORGE ABRAHAM, 8 GARHWAL RIF
4. 4082382X L/NK RANVEER SINGH GUSAIN, 8 GARHWAL RIF

SURESH YADAV
OSD to the President

**MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)**

New Delhi-110115, the 18th February 2013

RESOLUTION

Subject :—Constitution of Sector Innovation Council for the Ministry of HRD.

No. 17-2/2010-PN. I—In order to create a roadmap for innovations in both higher and school education sectors, it has been decided by the Government of India to constitute a Sectoral Innovation Council under the chairmanship of Hon'ble Minister of Human Resource Development. The constitution of the Council would be as under :—

- | | | |
|---|-------------------|--|
| 1. Hon'ble Minister of HRD | Chairperson | |
| 2. Hon'ble Ministers of State (HRD) | Member | |
| 3. Secretary, Deptt. of Higher Education | Ex-Officio Member | |
| 4. Secretary, Deptt. of School Education & Literacy | Ex-Officio Member | |
| 5. Prof. M. Anandkrishnan, Chairman, Board of Governors, IIT-Kanpur | Member | |
| 6. Prof. Gautam Barua, Director, IIT-Guwahati | Member | |
| 7. Prof. R. K. Shevgaonkar, Director, IIT-Delhi | Member | |
| 8. Prof. Dinesh Singh, VC, Delhi University | Member | |
| 9. Shri Mohammed Miyan, Vice Chancellor, MANUU, Hyderabad | Member | |
| 10. Prof. S. K. Thorat, Chairman, ICSSR | Member | |
| 11. Dr. Prahlada, VC, DIAT, Pune | Member | |
| 12. Shri T. V. Mohandas Pai, Chairman, Manipal Global Education Services Pvt. Ltd., Bangalore | Member | |
| 13. Representative of Azim Premji Foundation | Member | |
| 14. Dr. A. K. Sharma, Ex-Dir, NCERT | Member | |
| 15. Sh. Vineet Joshi, Chairman, CBSE | Member | |
| 16. Sh. Amit Kaushik, MD, Edu. Comp Schools, New Delhi | Member | |
| 17. Ms. Abha Adams Ex-Principal Shri Ram School/Shri Ram Foundation | Member | |
| 18. Sh. Hriday Kant Diwan, Vidhya Bhawan, Udaipur (pedagogy & curriculum) | Member | |
| 19. Sh. Madhav Chavan, CEO Pratham, Mumbai (reading Programmes & Testing) | Member | |
| 20. Dr. Padma Sarangpani, TISS, Mumbai | Member | |
| 21. Sh. Gurumurthy Kasinathan, Director, IT for Change, Bangalore | Member | |
| 22. Sh. Shailesh Shirali, Head of Community Maths Centre, Rishi Valley, Chittoor, A.P. | Member | |
| 23. Ms. Alok Guha, Ex-Chairman of National Trust, Kolkata | Member | |
| 24. Additional Secretary (Technology Enabled Learning), Deptt. of Higher Education, M/o HRD | Permanent Invitee | |
| 25. Additional Secretary (Technical), D/o H. E. M/o HRD | Permanent Invitee | |
| 26. Additional Secretary (School Education), D/o SE&L, M/o HRD | Permanent Invitee | |
| 27. Additional Secretary (EE-I), D/o SE&L, M/o HRD | Permanent Invitee | |

2. The Sectoral Innovation council will have the following terms of Reference :—

- (i) To map the opportunities for innovation in education.
- (ii) Explore the possibilities of encouraging and rewarding young talents for innovative models in education sector.
- (iii) To prepare a roadmap for decadal innovation in education sector.

3. The Sectoral Innovation Council may co-opt experts as members and form Sub-Groups as required with the approval of chairperson.

4. The TA & DA for non-official members shall be paid as per the GoI rules.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information and a printed copy of Gazette of India be sent to the undersigned.

AMIT KHARE
Jt. Secy.

The 14th March 2013

No. F. 27-10/2012-UU—In terms of sub-section (1) of section 21 of chapter-III of the Auroville Foundation Act, 1988, the Government of India hereby re-constitutes the Auroville International Advisory Council as follows :—

1. Dr. Gopalkrishna Gandhi,
House No. 7, Second Seaward Road,
Valmiki Nagar,
Chennai-600041.

2. Sir Mark Tully,
1, Nizamuddin East,
New Delhi-110013.

3. Dr. Visakha N. Desai,
President, Asia, Society, 725, Park Avenue,
New York, 10021, USA.

4. Mr. Julian Lines,
Auroville International Association,
P.O. 676, Woodstock,
New York-12498, USA.

2. The Chairman of the Council shall be elected by the members of the Council from among themselves.

3. The term of office of the members shall be for a period of four years from the date of this Resolution. The members shall serve in an honorary capacity.

4. Secretary, Auroville Foundation would be the Ex-officio Secretary of the Auroville International Advisory Council.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to (i) all the individuals (ii) Secretary, Auroville Foundation, Auroville-605101 (Tamil Nadu) and (iii) Secretary, Government of Tamil Nadu.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information

AMIT KHARE
Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2013
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013